


पुण्य-स्मरण अने धन्यवाद




आ ग्रन्थ प्रकाशित करवा घाटे, अमदावाद निवासी स्वर्गस्थ सेठ कालिदास
महर्षिचंदनी धर्मपत्नी श्राविका मंगुबाइए, पोताना पतीना पुण्यस्मरणार्थ
जे द्रव्य सहायता आपी छे, ते अदर तेमने धन्यवाद घटे छे.

आचाराङ्ग-सूत्रम्

मूलपाठ-विशिष्ट पाठभेद-शब्दकोष-समन्वितम्

(प्रथमः श्रुतस्कन्धः)



जर्मनराष्ट्रनिवासि-डॉक्टर-इत्युपाधिधारि-वाल्टर शुत्रिंग-नामधेयेन विद्वद्वरेण
संशोधितं, जर्मन-देशान्तर्गत-लाइप्जिग-नगर संस्थित-
प्राच्यविद्या-गवेषक समितिद्वारा रोमनलिप्यां
प्रकटीभूतं च पुस्तकमनुसृत्य

भारतवर्षान्तर्गत-

पुण्यपत्तन-संस्थापित

जैन साहित्य संशोधक समिति

नामकसंस्थायाः सञ्चालकेन देवनागराक्षरैः प्रकटी कृतम्



प्रकाशकः—शुनि तिलकविजय, भारत जैन विद्यालय, पूना शहर.

मुद्रकः—लक्ष्मण भाऊराव कोकाटे, हनुमान प्रेस, ३०० सदाशिव पेठ, पूना शहर.

॥ आचारंग-सुत्तं ॥

॥ 'बम्मचेराइं' नाम पहमो सुयकखन्धो ॥

स त्थ प रि त्ता

१-१

(१) सुयं मे, आउस, तेण भगवया एवमक्खायः—

इहमेगेसिं नो सत्ता भवइ, (२) त-जहा: 'पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि, दाहिणाओ वा दिसाओ....., पच्चत्थिमाओ वा दिसाओ.. ,उत्तराओ वा दिसाओ....., उट्ठाओ वा दिसाओ. , अहेदिसाओ वा... , अन्नयरीओ वा दिसाओ वा अणुदिसाओ वा आगओ अहमसि'—एवमेगेसिं नो नायं भवइ: (३) 'अत्थि मे आया उववाइए, नत्थि मे आया उववा-इए? के अह आसी के वा इओ चुओ इह पेच्चा भविस्तामि?' । (४) से उज पुण जाणेज्जा सह-सम्मुइयाए पर-वागरणेण अत्थेसिं वा अन्तिए सोच्चा, त-जहा :- 'पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि जाव अन्नयरीओ वा दिसाओ वा अणुदिसाओ वा आगओ अहमसि'—एवमेगेसिं नाय भवइ :- 'अत्थि मे आया उववाइए; जो इमाओ दिसाओ अणुदिसाओ वा अणुसत्तरइ, सव्वाओ दिसाओ सव्वाओ अणु 10 दिसाओ सोऽह' ।

(५) से आया-वाई लोगा-वाई कम्मा-वाई किरिया-वाई य ।

' करिस्स च'हं कारावेस्स च'हं करओ यावि समणुत्ते भविस्तामि'—एयावन्ती सव्वावन्ती लोगसि कम्म-समारम्भा परिजाणियव्वा भवन्ति । (६) अपरिन्नाय कम्मे खलु अय पुरिसे, जो इमाओ दिसाओ वा अणुदिसाओ वा अणुसत्तरइ, सव्वाओ दिसाओ सव्वाओ अणुदिसाओ सहेइ, 15 अणेग-रूवाओ जोणीओ सन्धेइ, विरूव-रूवे फासे पडिसवेएइ । (७) तत्थ खलु भगवया परिन्ना पवेइया इमस्स चे'व जीवियस्स परिवन्दण-माणण-पूयणाए, जाइ-मरण-मोयणाए दुक्ख-पडिघाय-हेउ—एयावन्ती सव्वावन्ती लोगसि कम्मसमारम्भा परिजाणियव्वा भवन्ति । जस्से'ए लोगांसि कम्म-समारम्भा परिन्नाया भवन्ति, से हु सुणी परिन्नाय-कम्मे—त्ति वेमि ॥

१-२

(१) अट्टे लोए परिजुण्णे दुस्संवेहे अविजाणए ।

अस्सि लोए पव्वहिए

तत्थ-तत्थ पुढो पास आचरा परियावोन्ति ।

(२) सन्ति पाणा पुढो-मिया ।

लज्जमाणा पुढो पास ।

“ अणनारा मो ” ति एगे पययमाणा ।

जमिण विरूव-रूवेहिं सन्थेहिं पुढवि-कम्मसमारम्भेण पुढवि-सन्थं समारम्भमाणे अन्ने
 ६ व' णेरूवे पाणे विहिंसइ—(३) तथ सल्ल भगवया परिन्ना पवेइया इमस्स चे'व वीवि-
 स्स परिवन्दण-माणण-पुयणाण, जाट मरण-मोयणाण, दुम्भ-पडिदाय-हेउ — से सयमेव
 पुढवि-सन्थ समारम्भइ अन्नेहिं वा पुढवि-सन्थ समारम्भावेट अन्ने वा पुढवि-सन्थं समार-
 म्भन्ते समणुजाणइ; (४) त से अहियाण, त से अन्नोहीण । से च सवुज्जमाणे जायाणीय,
 ससुट्ठाण — सोच्चा सल्ल भगवथो अणनाराण वा अन्तिण इहमेगेसिं नाय भवइ . एत्त सल्ल
 10 गन्थे, एत्त सल्ल मोहे, एत्त सल्ल मारे, एत्त सल्ल नरए ।

इच्चत्थ गट्ठिण लोण ।

जमिणं विरूव-रूवेहिं सन्थेहिं पुढवि-कम्मसमारम्भेण पुढवि-सन्थं समारम्भमाणे अन्ने
 वणे'ग-रूवे पाणे विहिंसइ—

(५) से वेमि' अप्पेगे अच्चमव्भे, अप्पेगे अटमन्ठे; अप्पेगे पायमव्भे, अप्पेगे पायमच्छे; ...
 15 गुप्फ... जघ... जाणु . . ऊरुं . . कट्ठि... नाभिं . . उथर पासं पिट्ठि... उर.... हियय....
 थण . . सन्ध... वाहु... इत्थं... अगुलिं ... नद... गीव... हणु... होट्ट... दन्तं... जिब्ब... तेरु
 गल... गण्ड... कण्ण... नासं... अच्छि... भगुहं... निलाड . . सीसं...; अप्पेगे संपमारए
 अप्पेगे उद्दवए ।

(६) एत्थ सन्थं समारम्भमाणस्स इच्चेए जारम्भा अपरिन्नाया भवन्ति, एत्थ सन्थ
 20 समारम्भमाणस्स इच्चेए आरम्भा परिन्नाया भवन्ति । त परिन्नाय मेहावां नेव सय पुढवि-सन्थं
 समारम्भेजा नेव'त्तेहिं पुढवि-सन्थं समारम्भाजेजा नेव'त्ते पुढवि-सन्थं समारम्भन्ते समणुजाणेजा ।
 जस्से'ए पुढवि-कम्म-समारम्भा परिन्नाया भवन्ति, से हु सुणी परिन्नाय-कम्मे — ति वेमि ॥

१-३

(१) से वेमि . से जहा वि—

अणनारे उज्जुक्के निगाग-पट्टिवन्ने अमायं कुव्वमाणे विवाहिए ।

25 (२) जाए सद्धान्णे निरखन्तो, तमेव अणुपालिया;

विवहित्तु विसोत्तिव

पणया वीरा महा-वीहिं

लोग च आणए अभिसमेत्ता अकुओभय ।

(३) से वेमि:—ने'व सय लोगं अब्भाइक्खेज्जा, नेव अत्ताण अब्भाइक्खेज्जा । जे लोगं
 30 अब्भाइक्खइ, से अत्ताण अब्भाइक्खइ, जे अत्ताणं अब्भाइक्खइ, से लोग अब्भाइक्खइ ।

(४-६) 'लज्जमाणा....(यथा प० २-१३. नर पुढवि स्थाने उद्दय भगनीय) .

विहिंसइ—

(७) से वेमि : सन्ति पाणा उदय-निस्तिया जीवा अणेगा ।
 इह च खलु भो अणगाराण उदयं जीवा वियाहिया ।
 सत्थं चेत्य अणुवीइ, पास पुढो सत्थ पवेइयं :
 अदु वा अइत्ता'याणं .

“ कप्पइ णे कप्पइ णे पाउ” ,

5

अदु वा विभूसाए पुढो सत्थेहिं विउट्टन्ति । एत्थ वि तोसिं नो निकरणाए ।

(८) एत्थ सत्थ... (यथा २, १९-२२. नवर पुढवि स्थाने उदय भणनीय)...परिन्नाय-
 कम्मे—त्ति वेमि ॥

१-४

(१-२) से वेमि : ने'व सयं... (यथा २, २९-३०)... लोग अब्भाइक्खइ । जे
 दीहलोग-सत्थस्स खेयत्ते, से असत्थस्स खेयत्ते; जे असत्थस्स खेयत्ते, से दीहलोग-सत्थस्स खेयत्ते । 10

(३) वीरेहिं एय अभिभूय दिट्ठं

संजएहिं सया जएहिं सया अप्पमत्तोहिं :

जे पमत्ते गुणाट्टिए, से हु दण्डे पवुच्चइ ;

तं परिन्नाय मेहावी “ इयाणि नो,

जमहं पुण्वमकासी पमाएणं ” ।

15

(४-५) ‘ लज्जमाणा ... (यथा २, २-१३. नवर पुढवि स्थाने अगाणि भणनीय)....

विहिंसइ—

(६) से वेमि : सन्ति पाणा पुढवि-निस्तिया तण-निस्तिया पत्तनिस्तिया कट्ट-निस्तिया
 गोमय-निस्तिया कयवर-निस्तिया, ‘सन्ति संपाइमा पाणा, आहच्च सपयन्ति य’। अगार्णि च खलु
 पुट्टा एगे संघायमावज्जन्ति; जे तत्थ सघायमावज्जन्ति, ते तत्थपरियाविज्जन्ति; जे तत्थ परि- 20
 याविज्जन्ति, ते तत्थ उद्दायन्ति ।

(७) एत्थ सत्थ... (यथा २, १९-२२. नवर पुढवि स्थाने अगाणि भणनीय)
 परिन्नाय-कम्मे—त्ति वेमि ॥

१-५

(१) “त नो करिस्तामि ससुट्टाए

मत्ता मइम अभय विइत्ता ।

25

त जे नो कए, एत्तोवरए; एत्थोवरए एस अणगारे त्ति पवुच्चइ ।

(२) जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे उट्टु अह तिरिय पाईण पासमाणे रूवाइ
 पासइ, सुणमाणे सद्दाइ सुणइ; (३) उट्टु अह तिरिय पाईण मुच्छमाणे रूवेसु मुच्छइ सद्देसु यावि ।

एत्थ अगुत्ते अणाणाए । एस लोए वियाहिए

पुणो-पुणो गुणासाए वक-समायारे पमत्ते गारमावसे ।

(४-५) ‘ लज्जमाणा (यथा २, २-१३ नवर पुढवि स्थाने वणस्सइ भणनीय)....विहिंसइ— 30

(६) से वेमि : इमं पि जाइ-धम्मय, एयं पि जाइ-धम्मय; इम पि बुद्धि-धम्मय, एयं पि बुद्धि-धम्मय; ...चित्तमन्तय....छिन्न मिलाइ....आहारगं....अनिच्चय....असाइय.... चयावचइय....विपरिणाम-धम्मय ।

(७) एय सत्थ ... (यथा २, १९-२२ नवरं पुढवि स्थाने घणस्सइ भणनीय)
५ परिन्नाय-कम्मे—त्ति वेमि ॥

१-६

(१) से वेमि : सन्ति'मे तसा पाणा, त-जहाः—अण्टया पोयया जराउया रसया ससेयया सम्मुच्छिमा उब्भिया उववाइया ।

एस ससारे त्ति पवुच्चइ

(२) मन्दस्स अविजाणओ ।

10 निज्जाइत्ता पडिलेहिता पत्तेय परिणिब्बाणं
सव्वेसिं पाणाणं, सव्वेसिं भूयाण, सव्वेसिं जीवाण, सव्वेसिं सत्ताण अत्ताय अपरिणिब्बाण ।
महब्भय दुक्ख ति वेमि ”।

तसन्ति पाणा पदित्तो दिसामु य ।

15 (४) ' लज्जमाणा (यथा २, २-१३. नवरं पुढवि स्थाने तसकाय भणनीय)
विहिंसइ—

(५) से वेमि : अप्पेगे अच्चाए हणन्ति, अप्पेगे अज्जिणाए वहन्ति,....मसाए....मोणि-
याए...., एव हिययाए पिताए वसाए पिच्छाए पुच्छाए वालाए सिंगाए विसाणाए दन्ताए
दाढाए नहाए प्हारुणीए अट्ठीए जट्ठिभिजाण—अट्ठाए अणट्ठाए; अप्पेगे 'हिंसित्तु मे' त्ति वा वहन्ति,
20 अप्पेगे ' हिंसन्ति मे ' त्ति वा वहन्ति, अप्पेगे ' हिंसिस्सन्ति मे ' त्ति वा वहन्ति ।

(६) एय सत्थ....(यथा २, १९-२२. नवरं पुढवि स्थाने तसकाय भणनीय) .. परिन्नाय-
कम्मे—त्ति वेमि ॥

१-७

(१) प्हू य एजस्स दुगुज्जणाए ।

आयक दसी 'अहिय' ति नच्चा ।

25 जे अज्जत्थ जाणइ, से वहिया जाणइ; जे वहिया जाणइ, से अज्जत्थं जाणइ : एय
तुळ अत्रोसिं ।

इह सन्ति-गया दविया नावकस्सन्ति जीविउ ।

(२-३) ' लज्जमाणा. . (यथा २, २-१३. नवरं पुढवि स्थाने चाउ भणनीय)विहिंसइ—

(४) से वेमि.

फरिसं च खलु पुढा (यथा ३, १९-२१) उद्दायन्ति ।
 (५) एत्थ सत्थं (यथा २, १९-२२ नवर पुढवि स्थाने चाउ भणनीय)....
 परिन्नाय-कम्मे—त्ति वेमि ॥

(६) एत्थ पि जाणे उवाइयमाणा

जे आयारे न रमन्ति,

आरम्भमाणा विणयं वयन्ति;

छन्दोवणीया अज्जोववन्ता

आरम्भसत्ता पकरेन्ति सग ।

से वसुमं सव्व-समन्नागय-पन्नाणेण अप्पाणेणं अकरणिज्ज पाबं कम्मन्तं नो अत्तेसि ।

(७) तं परिन्नाय मेहावी (यथा २, २०-२२ नवर पुढवि स्थाने छाज्जीवनिकाय 10 भणनीय) परिन्नाय-कम्मे—त्ति वेमि ॥

लो ग वि ज ओ

२-१

(१) जे गुणे से मूल-ङ्गाणे, जे मूल-ङ्गाणे से गुणे ।

इति से गुणट्ठी

महया परियावेण वसे पमत्ते,

तं-जहाः— ' माया मे, पिया मे, माया मे, भङ्गी मे, भज्जा मे, पुत्ता मे, धूया मे, 15 सुण्हा मे, सहि-सयण-संगन्थ-सथुया मे, विचिचोवगरण-परियट्ठण-भोयण'च्छायणं मे ' ;

' इच्चत्थं गढिए लोए ' । ' वसे पमत्ते '

अहो य राओ परितप्पमाणे

कालाकाल-समुट्ठाई सजोगट्ठी अत्थालोभी आलुम्पे

सहसाकारे विनिविट्ठ-चित्ते

' एत्थ सत्थे पुणो-पुणो ' ।

(२) अप्प च खलु आळं इहमेगोसिं माणवाणं,

त-जहाः—सोय-परिन्नाणेहिं परिहायमाणोहिं, चक्कु-प० प०, घाण- प० प०, रस-प० प०, फास-प० प०; अभिकन्त च खलु वय संपेहाए—तओ से एगया मूढ-भावं जणयन्ति; जेहिं वा सद्धिं सवसह, ते व ण एगया नियगा पुंविं परिवयन्ति सो वा ते 25 नियगे पच्छा परिवएज्जा ।

नाल ते तव ताणाए

वा सरणा ए वा, तुमप्पि तेसिं नाल ताणाए वा सरणाए वा । (३) ' से न हस्ताए,

न किडुए, न रईए, न विभूसाए' इच्चेव समुट्ठिए 'अहो विहाराए'। अन्तर च खलु इम संपेहाए

धीरे मुहुत्तमवि नो पमायए;

वओ अच्चेइ जोव्वण च जीविए

इह जे पमत्ता,—

से इन्ता छेत्ता भेत्ता लुम्पित्ता विलुम्पित्ता उद्ध्वेत्ता उतासृत्ता ' अरुहं करिस्तामि ' ति मन्त्रमाणे । जेहिं वा (यथा ५, २५-२८. नवर परिचरयन्ति तथा परिचरयन्ता म्याने पोमेन्ति तथा पोसेज्जा भगनीय) ... सरणाए वा । (४) उवाइय-सेसन्तेण वा सन्निहि-सन्निचओ कज्जइ इहमेगिसिं माणवाण भोयणाए । तओ से एगया रोग-समुप्पाया समुप्पजन्ति; जेहिं वा (यथा ५, २५-२८ नवर परिहरन्ति तथा परिहरन्ता पठनीय) . सरणाए वा ।

(५) जाणित्तु दुक्ख पतेय माय

अणभिकन्त च खल्ल वयं संपेहाए

रण जाणाहि पण्डिण

10 जाव सोत्त-परिजाणेहिं अपरिहायमाणेहिं, नेत्त-प० अ०, घाण-प० अ०, रत्त-प० अ०, फास-प० अ०; इच्चेएहिं विरत्त-रूवेहिं परिजाणेहिं अपरिहायमाणेहिं । आयइ सम्मं समणुवासे-ज्जासि—ति वेमि ॥

२-२

(१) अरइ आवट्टे से मेशावी;

खणंसि मुक्के अणाणाए

15 पुट्टा वि एगे नियट्टन्ति मन्दा मांहेण पाळटा:
" अपरिग्गहा भविस्सामो " समुट्टाए लद्धे कामे'भिगाहइ ।
अणाणाए मुणिणो पडिलेहन्ति; एत्थ मोहे पुणो पुणो
सत्ता नो हव्वाए नो पाराए ।

20 विमुत्ता हु ते जणा, जे जणा पार-गामिणो ।
लोभ अलोभेण दुगुच्छमाणे
लद्धे कामे नो'भिगाहइ ।

विणइत्तु लोभ निक्खम्म

एस अरुम्मे जाणइ पासइ, पडिलेहाए नावऋसइ, एस

अणगारे ति पवुच्चइ ।

25 (२) ' अहो य राजो.... (यथा ५, १९-२१) ... पुणो-पुणो'से आय-बले, से नाइ-बले, से मित्त-बले, से पेच्च-बले, से देव-बले, से राय-बले, से चोर-बले, से अइहि-बले, से किवण-बले, से समण-बले, (३) इच्चेएहिं विरुव-रूवेहिं कज्जेहिं दण्ड-समायाण सपेहाए भया कज्जइ ' पाव-मोक्खो ' ति मन्त्रमाणे अट्ट वा आमत्ताए । त परिन्नाय मेहावी नेव सय एएहिं कज्जेहिं दण्ड समारम्भेज्जा, नेव'न्न एएहिं कज्जेहिं दण्ड समारम्भावेज्जा, नेव'न्न 30 एएहिं दण्ड समारभन्त समणुजाणेज्जा । एस मग्गे आरिएहिं पवेइए, जहेत्थ कुसले नोवल्लिप्ये-ज्जासि—ति वेमि ॥

२-३

(१) से असइ उच्चा-गोए, असइ नीया-गोए, नो हीणे, नो अइरित्ते : नो पीइए । इति सखाए के गोया-वाई, के माणा-वाई, कसि वा एगे गिज्जे ? (२) तम्हा

पण्डिए नो हरिसे, नो कुज्जे

भूएहिं जाण पडिलेह सायं
समिए एयाणुपस्ती,

त-जहा : अन्धत्त बहिरत्त मूयत्त फाणत्त कुण्डत्तं खुज्जत्तं वडमत्तं सामत्तं सबलत्तं, सह
पमाएणं अणेग-रूवाओ जोणीओ सधेइ, विरूव रूवे फासे पडित्तवेएइ। (३) से अट्टुज्जमाणे हओवहए 5
जाई-मरण अणुपरियट्टमाणे।

जीविय पुढो पिय इह मेगेहिं माणवाणं खेत्त-वत्थु ममायमाणान्; आरत्त विरत्त माणि-
कुण्डलं सह हिरण्णेण, इत्थियाओ परिगिज्ज तत्थेव रत्ता, न एत्थ तवो वा दमो वा नियमो
वा दिस्सइ;

सपुण्णं वाले जीविउ-कामे लालप्पमाणे

10

मूढे विप्परियासु'वेइ।

(४) इणेमव नावकखन्ति जे जणा धुव-चारिणो;
जाई-मरण परिन्नाय चरे सक्कणे दढे।

नत्थि कालस्सणागमो—सञ्जे पाणा पिया'ऊया

सुह-साया दुक्ख-पडिकूला

15

अप्पिय-वहा पिय-जीविणो जीविउ-कामा। सञ्जेहिं जीवियं पिय,

(५) तं परिगिज्ज दुपयं चउप्पयं

अभिलुञ्जियाणं ससच्चियाण

तिविहेण—जा वि से तत्थ मत्ता भवइ अप्पा वा बहुगा वा, से तत्थ गडिए चिड्डइ
भोयणाए। तओ से एगया विपरिसिद्ध सभूय महोवगरण भवइ, त पि से एगया दायादा विभ-20
यन्ति, अदत्तहारो वा से अवहरइ, रायाणो वा से विलुम्पन्ति; नस्सइ वा से, विनस्सइ वा से,
अगार-दाहेण वा से डज्जइ। इति से परस्सट्टाए

कूराईं कम्माइ वाले पकुञ्चमाणे

तेण दुक्खेण मूढे विप्परियासु'वेइ।

मुणिणा हु एयं पवेइय :

25

अणोहन्तरा एए, नो य ओहं तरित्तए ;

अतीरंगमा एए, नो य तीरं गमित्तए ; अपारंगमा एए, नो य पारं गमित्तए।

आयाणिज्ज च आयाय तम्मि ठाणे न चिड्डइ,

वितह पप्प'खेयजे तम्मि ठाणम्मि चिड्डइ।

उद्देमो पासगस्स नत्थि; वाले पुण निहे काम-समणुन्ने अत्तमिय-दुक्खे दुक्खी 30
दुक्खाणमेव आवट्टमणुपरियट्टइ—त्ति वेमि ॥

परिचरन्ति तथा पश्चिष्णुजा भगनीय)... सरणाए वा ।

(२) जाणितु दुक्ख पत्तये-सायं

भोगामेव अणुमोयन्ति—इह मेगोसि माणवाण—तिविहेण....(यया७,१९-२२ नवर अचहरइ
स्याने हरइ भगनीय)....विप्परियासुवेइ':—

5 (३) आसं च छन्द च विगिंच धीरे, तुम चेष,
त सहइ आहट्टु; जेण सिया, तेण नो सिया ।
इणमेव नाववुज्जन्ति जे जणा मोह-पाउडा ।

थीभि लोए पव्वहिण; ते भो वयन्ति: “ एयाइ आवयणाइ ” । से दुन्खाए मोहाए
माराए नरगाए नरम-तिरिक्खाए ! सयय मूढे धम्म नाभिजाणइ ।

10 उयाहु वीरे: अप्पमाओ महा-मोहे !

(४) अलं कुसलस्त पमाएण सन्ति-मरण संपेहाए, भेउर-धम्म संपेहाए !
“ नाल पाम ”—अल तव एएहिं !

एयं पास, मुणी, महम्मय, नाइयाएज्ज कच्चण ।

एस वीरे पत्तिए, जे न निविज्जइ आयाणाए:

15 ' न मे देइ ' न कुप्पेज्जा, थोव लद्धं न खिसए,
पडिभेहिओ परिणमेज्जा ।

एयं मोण समणुवासेज्जासि—सि वेमि ॥

२-५

(१) जमिणं विरुव-रुवेहिं सत्थेहिं लोगस्त कम्म-समारम्भा कज्जन्ति, त-जहा:
अप्पणो से पुत्ताणं धूयाण सुण्हाण नाईण धाईण राईण दासाण दासीण कम्म-करण कम्म-
20 करीण आएसाए, पुढो परेणाए, सा'मासाए पायरासाए सन्निहि-सन्निचओ कज्जइ (२) इह
मेगोसि माणवाणं भोयणाए

ससुट्टिए अणगारे आरिए आरिय-पन्ने आरिय-दसी

' अय सधी ' ति अइक्खु से नाइए नाइयावए न समणुजाणाइ ।

सव्वामगन्धे परिन्नाय निरामगन्धे परिव्वए ।

25 (३) अदिस्समाणे कय-विकएसु

से न किणे, न किणावए, किणन्त न समणुजाणाए । से भिक्खू कालन्ने वलन्ने मायन्ने
खेयन्ने खणयन्ने विणयन्ने स-सप्तयन्ने पर-समयन्ने भावन्ने,

परिग्गह, अममायमाणे,

काले'णुहाई अपडिले, दुइओ

30 छित्ता नियाइ ।

वत्थं पडिगाहं,

कम्मलं पाथ-पुञ्जणं ओग्गहं च कडासण;

एएसु चेव जाणेज्जा

लद्धे आहारे अणगारो माय जाणेज्जा

से जहे'य भगवया पवेइय :

' लाभो ' ति न मज्जेज्जा, ' अलाभो ' ति न सोयए,

वहु पि लद्धु न निहे ।

5

परिग्गहाओ अप्पाण अवसक्केज्जा, अन्नहा ण पासए परिहरेज्जा । एस मग्गे आरिइहिं

पवेइए, जहे'त्थ कुसले नोवलिप्पेज्जासि—त्ति वेमि ।

(४) कामा दुरइक्कमा, जीविय दुप्पडिवूहण;

काम-कामी खलु अय पुरिसे, से सोयइ जूरइ तिप्पइ पिट्टइ पारितप्पइ ।

आयय-चक्खू लोग-विपस्सो

10

लोगस्स अहे-भाग जाणइ, उड्डु भाग जाणइ, तिरिय भाग जाणइ गट्टिए अणुप-

रियट्टमाणे;

सधिं विइत्ता इह मच्चिचएहिं

' एस वीरे पससिए, जे वद्धे पडिमोयए ' ।

(५) जहा अन्तो तहा बाहिं, जहा बाहिं तहा अन्तो । अन्तो-अन्तो पूइ-देह-16

न्तराणि पासइ पुढो विसवन्ताइ पण्डिए पडिलेहाए,

से मइम परिन्नाए ।

मा य हु लाल पच्चासी,

मा तेसु तिरिच्छं अप्पाण आवायए । कासकसे'य खलु पुरिसे, बहु-माई, कडेण मूढे

पुणो तं करेइ लोभं;

20

वेरं वड्डेहि अप्पणो ।

जमिण परिकहिज्जइ, इमस्स चेव पडिवूहणयाए

अमरायइ महा-सट्ठी,

अट्टमेय तु पेहाए अपरिन्नाएँ कन्दइ;

“ से त जाणइ, जमह वेमि । ”

25

(६) तेइच्छं पण्डिए पवयमाणे । से हन्ता छेत्ता भेत्ता लुम्पित्ता विलुम्पित्ता चह्व-

इत्ता ' अकड करिस्सामि ' ति मन्नमाणे ।

जस्स वि य ण करेइ,

अल बालस्स सगेण,

जे वा से करेइ, वाले ।

30

न एव अणगारस्स जायइ—त्ति वेमि ॥

२-६

(१) से त्त सबुज्झमाणे आयाणीय, समुट्टाए—तम्हा पाव कम्म

ने'व कुज्जा न कारवे ।

सिया तत्थे'गयरं विपरामुसुद,

छमु अन्नयरम्मि कप्पइ ।

सुहद्धीं लालप्पमाणे

सएण दुक्खेण मूढं विप्परियासु'वेइ ।

5

सएण वि प्पमाणेण पुढीं वथ पकुव्वइ,

जासि'मे पाणा पव्वहिया । पडिलेहाण " नो निरुणाए " .

एत परिन्ना पवुच्चइ, -कम्मोवमन्ती ।

जे ममाइय-मइं जहाइ, से जहाइ ममाइय;

से हु दिट्ठ-भए सुणी, जम्भ नत्थि ममाइय ।

10

त परिन्नाय मेहावी

विइत्ता लोग, वन्ता लोग-सज्ज

से मइम परकमेव्वजासि—सि वेमि ।

(३) नारइ सहए वीरे, वीरे नो सहए रइ;

जम्हा अविमणे वीरे, तम्हा वीरे न रउजई ।

15

सइे य फासे अहियासमाणे

निग्गिन्द नन्दि इह जीवियन्त ।

सुणी मोण समायाय धुणे कम्म-सररिगं;

पन्त लुह सेवन्ति वीरा सम्मत्त-दत्तिणो ।

एत थोहत्तरे सुणी तिण्णे सुत्ते विरण विवाहिए—सि वेमि ।

20

(४) दुव्वसु-सुणी अणाणाए तुच्छए गिलाइ वइए

'एत वीरे पससिए', 'अच्चेइ लोग-सज्जोग, एत नाए पवुच्चइ'; ज दुक्ख पवेइय 'इह माणवाण'

तस्स 'दुक्खस्स कुसला परिन्न उदाहरन्ति ' (५) ' इति कम्म परिन्नाय सव्वसो ' ।

जे अणन्न-दसी से अणन्नारामे, जे अणन्नारामे से अणन्न-दसी.

जहा पुण्णस्स कन्थई, तथा तुच्छस्स कन्थइ ।

25

जहा तुच्छस्स कन्थई, तथा पुण्णस्स कन्थई । जवि य हणे अणाइय माणे.

एत्थम्मि जाण. सेय ति नत्थि

" के'यं पुरित्ते क च नए ? ! " ' एत वीरे पससिए, जे वद्धे पडिमोयए !'

चड्डु अहं तिरिय दिसानु;

से सव्वओ सव्व परिन्न-चारी

30

न लिप्पई छण-पएण वीरे ।

से मेहावी, जे अणुन्धायणस्स खेयत्ते, जे य वन्ध-पमोक्खमत्तेत्ती:

कुसले पुण नो वद्धे

नो मुक्के से ज्ज च आरभे ज च नारभे !

(५) अणारद्ध च नारभे,

छण-छणं परिन्नाय लोग सन्न च सब्वसो ।
उद्देसो पासगस्त..(यथा ७,३०) ... आवद्ध अणुपरियद्धइ—ति वेमि ॥

सी ओ स णि जं

३-१

(१) सुत्ता अमुणी, मुणिणो सयय जागरन्ति;

लोगसि जाण अहियाय दुक्ख ।

समय लोगस्त जाणित्ता

5

एत्थ सत्थोवरए । जस्सि'मे सद्दा य रूवा य गन्धा य रसा य फासा य अभिसमन्नागया
भवन्ति, (२) से आयव नाणव वेयव धम्मव वम्मव, पन्नाणेहिं परिजाणइ लोग ।

मुणी ति वच्चे, धम्मविउ ति अञ्जू,

आवद्ध-सोए सगमिण'भिजाणइ ।

सीओसिण-त्ताई से निग्गन्थे अरइ-रइ-सहे फरुसिय नो वेएइ ।

10

जागर-वेरोवरए वीरे एव दुक्खा पमोक्खसि ।

(३) जरा-मच्चु-वसोवणीए नरे,

सययं मूढे धम्म नाभिजाणइ ।

पासिय आत्तेरे पाणे अपमत्तो परिव्वए ।

मन्ता एय अहिय ति पास

15

' आरम्मज दुक्खमिण ति नच्चा

माई पमाई पुनरेइ गब्भ ।

उवेहमाणो सद्-रूवेसु उज्जू

माराभिसाकि मरणा पमुच्चइ ।

अप्पमत्तो कामेहिं, उवरओ पाव-कम्मोहिं, वीरे आय-गुत्ते, जे खेयन्ने । (४) जे 20
पज्जवजाय-सत्थस्त खेयन्ने; से असत्थस्त खेयन्ने; जे असत्थस्त खेयन्ने, से पज्जवजाय-
सत्थस्त खेयन्ने ।

अकम्मस्त ववहारो न विज्जइ

कम्मुणा उवाही जायइ ।

कम्म च पडिलेहाए कम्म मूल च ज छण पडिलेहिय, सब्व समायाय25

दोहिं अन्तोहिं अदिस्समाणे

त परिन्नाय मेहावी

विइत्ता लोग, वन्ता लोग-सन्न

से मइम परकमेज्जासि—ति वेमि ॥

३-२

१. जाइ च बुद्धिं च इह'उज पास,
भूर्णहिं साय पडिल्लेह जाणे;
तम्हा'इविज्जो ' परम ' ति नच्चा
मम्मत्त-दत्ती न करेइ पाव ॥
२. उम्मुञ्च पास इह मच्चिण्हि;
यारम्म-जीवी उभयाणुपस्ती
कामेसु गिद्धा निचय करेन्ति,
सत्तिच्चमाणा पुनरेन्ति गम्भ ॥
३. अचि से हासमासज्ज ' हन्ता नन्दी ' ति मन्नइ ।
अल वालस सगेण, वेर वट्टइ अप्पणो ॥
४. तम्हा'इविज्ज ' परम ' ति नच्चा
आयक-दत्ती न करेइ पाव;
अग च मूल च विगिञ्च धीरे
पल्लिच्छिन्दियण निम्म-दत्ती ॥

(१) एत मरणा पमुच्चइ, से हु दिहु-भए सुणी;
लोगंसि परम-दत्ती

विवित्त-जीवी उवसन्ते समिए सहिए सया जए
कालकारी परिव्वए ।

बहु च खलु पाव कम्म पगड ।

सच्चम्मि थिइ कुव्वहा ।

एत्थोवरए मेहावी सव्व पाव कम्म झोसेइ । (२) अणेग-चित्ते खलु अय पुरिसे
से केयण अरिहइ पूरइत्तए, से अन्न-वहाए अन्न-परियावाण अन्न-परिग्हाए, जणवय-वहाए
जणवय-परियावाए जणवय-परिग्हाए ।

(३) आसेवित्ता एयमहु इच्चवे'गे समुद्धिया;
तम्हा त विइय नो सेवए निस्तार पासिय नाणी ।
उववाय चवण नच्चा अणन्न चर माहणे ।
से न हणे न छणावण छणन्त नाणुजाणए ।
निव्विन्द नान्दि अरए पयासु
अणोमदत्ती

निसण्णो पावेहिं कम्मोहि ।

५. कोहाइमाण हणिया य वीरे,
लोभस्त पासे निरय महन्त;
तम्हा हि वीरे विरओ वहाओ

छिन्देज्ज सोय लहुभूय-गामी ।
 ६. गन्थ परिन्नाय इह'ज्ज वीरे
 सोय परिन्नाय चरेज्ज दन्ते;
 उम्मुग्गो लध्दु इह माणवेहिं
 नो पाणिण पाणे समारमेज्जासि—त्ति वेमि ॥

5

३-३

(१) संद्धिं लोगस्त जाणिता

आयओ वहिया पास, तम्हा न हन्ता न वि घायए ।
 जमिण अन्नमन्न-विइमिञ्छाए
 पडिलेहाए न धरेइ पाव कम्म,

किं तत्थ, मुणी, कारणं सिया ?

10

१. समय तत्थु'वेहाए अप्पाण विप्पसायए;
 अणन्न-परम-न्नाणी नो पमाए कयाइ वि ॥
 आय-गुत्ते सया धारे जाया-मायाए जावए,

(२) विरागं ख्वेसु गच्छेज्जा महया खुड्डएहि वा ।

आगइ गइं परिन्नाय
 दोहिं वि अन्तेहिं अदिस्समाणे
 से न छिज्जइ न भिज्जइ न डज्जइ,
 न हम्मइ (३) कचण सव्व लोए ।

15

अवरेण पुव्वं न सरन्ति एगे
 मिस्स'ईय किं वा'गमिस्स;
 भासन्ति एगे इह माणवा उः
 जमस्स'ईय तमा'गमिस्स ।

20

नाईयमद्ध न य आगमिस्स
 अद्ध नियच्छन्ति तहागया उ;
 विधूय कप्पे एयाणुपरिस्सि
 निज्जोसइत्ता खवए महेसी ।

25

२. का अरइ के या'णन्दे ? ए-थ पि आगहे चरे;
 सव्व हास परिच्चज्ज अह्ठाण-गुत्तो परिव्वए ।

(४) पुरिसा ! तुममेव तुम-मित्त, किं वहिया मित्तमिच्छसी ?

जं जाणेज्जा उच्चालइय, त जाणेज्जा दूरालइय; ज जाणेज्जा दूरालइय; त जाणेज्जा उच्चालइय ।

पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिनिगिज्ज, एवं दुक्खा

पुरिता । सच्चमेव समभिजाणाहि । सच्चस्स आणाए उवट्टिए मेहावी मार तरइ ।
सहिए धम्ममायाय सेय समणुवस्तइ ।

दुहओ · जीवियस्स परिवन्दण-माणण-पूयणाए, जसि एगे पमायन्ति; सहिए दुक्खमत्ताए
पुढो; नो ज्ञञ्जाए ।

5 पासिम दविए लोए लोमालोग-पवञ्जाओ पमुच्चर—चिवेमि ॥

३-४

(१) से वन्ता कोह च माण च माय च लोभ च एय पासगस्स दसण, उवरय-
सत्थस्स पलियन्त-करस्स आयाण सगडब्भि । जे एग जाणइ, से सव्व जाणइ; जे सव्व जाणइ,
से एग जाणइ । सव्वओ पमत्तस्स भय, सव्वओ अप्पमत्तस्स नत्थि भय । २ जे ' एग ' नामे,
से ' बहु ' नामे; जे ' बहु ' नामे, से ' एग ' नामे ।

10 दुक्ख लोमस्स जाणित्ता वन्ता लोमस्स सजोग
जन्ति वीरा महा-जाण, परेण पर जन्ति, नाचरुखन्ति जीविय ।

(३) एग विगिञ्चमाणे पुढो विगिञ्चइ, पुढो विगिञ्चमाणे एग विगिञ्चइ ।
सुट्ठी आणाएँ मेहावी,
लोम च आणाए अभिसमेच्चा अकुओभय ।

15 अत्थि सत्थ परेण पर, नत्थि असत्थ परेण पर :

(४) जे कोह-उसी से माण-उसी, जे माण-उसी से माय-उसी, . लोभ-उ० ...
पेज्ज-उ० . दोस-उ० मोह-उ० गव्व उ० जम्म-उ० . मार-उ० . नरय-उ०
तिरिय-उ० .. दुक्ख-उसी । से मेहावी अभिनिव्वचेज्जा कोई च माण च
माय च लोभ च पेज्ज च दोस च मोह च गव्व च जम्म च मार च नरय च तिरिय
20 च दुक्ख च । एय (यथा ९) . आयाण निसिद्धा सगडब्भि । किमत्थि उवाही
पासगस्स ? न विज्जइ, नत्थि—चि वेमि ॥

स म्म चं

४-१

(१) से वेमि. जे य अईया जे य पडुप्पन्ना जे य आगभिस्सा अरहन्ता भग-
न्वतो, सव्वे ते एवमाइक्खन्ति एव भासन्ति एव पन्नवेन्ति एव परूवेन्ति.—सव्वे पाणा
सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता न हन्तव्वा न अज्जावियेव्वा न परिधेत्तव्वा न परियावेयव्वा
25 न उद्वेयव्वा । (२) एस धम्मे सुट्ठे नितिए सासए समेच्च लोम स्खेयवोहिं पवेइए, त-जहा-
उट्टिएसु वा अणुट्टिएसु वा, उवट्टिएसु वा अणुवट्टिएसु वा, उवरय-दण्डेसु वा अणुवरय
दण्डेसु वा, सोवहिएसु वा अणुवहिएसु वा, सजोग-रएसु वा असजोग-रएसु वा ।

तच्च चे'य तथा चे'य, अस्सि चे'य पवुच्चइ ।

(३) त आइत्तु न निहे, न निक्खिखवे, जाणित्तु धम्म जहा-तहा ।

दिद्वहिं निव्वेयं गच्छेज्जा, नो लोगस्ते'सण चरे ।

जस्त नत्थि इमा नार्हे, अन्ना तस्स कओ सिया ?

दिद्व सुय मयं विन्नाय, ज एव परिकहिज्जइ । समेमाणा चलेमाणा ' पुणो-पुणो जाइ पकप्पेन्ति ' ; ' अहो य राजो जयमाणे धीरे, ' सया आगय-पन्नाणे ।

पमत्ते वहिया पास, अप्पमत्ते सया परकमेज्जासि—ति वेमि ॥

5

४-२

(१) जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा । जे अणासवा ते अपरिस्सवा, जे अपरिस्सवा ते अणासवा । एए पए सबुज्जमाणे लोग च आणाए अभिसमेच्चा पुढो पवेइयं

आघाइ नाणी इह माणवाण

ससार पाडिवन्नाण संबुज्जमाणानं विन्नाण-पत्ताणः

(२) अट्टा वि सन्ता अदु वा पमत्ता !

10

अहा-सव्वमिण ति वेमिः

ना'णागमो मच्चु-मुहस्स अत्थि;

इच्छा-पर्णाया वकानिक्केया

काल-गहीया निचए निविट्ठा

पुढो-पुढो जाइं पकप्पयन्ति ।

15

(३) एगे वयन्ति अदु वा वि नाणी

नाणी वयन्ति अदु वा वि एगेः

आवन्ती केया'वन्ती लोगसि समणा य माहणा य पुढो विवायं वयन्ति:—“ से दिद्व च णे, सुय च णे, मय च णे, विन्नाय च णे,

उड्डु अहे यो तिरिय दिसासु

20

सव्वओ सुपडिलेहिय च णे: सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता हन्तव्वा अज्जावेयव्वा परिघेत्तव्वा उद्वेयव्वा;

एत्थ पि जाणहः नत्थेत्थ दोसो ” ।

(४) अणारिय-वयणमेय । तत्थ जे ते आरिया, ते एव वयासी:—“ से दुद्विद्व च भे, दुस्सुय च भे, दुम्मय भे, दुव्विन्नाय च भे, ' उड्डु . दुप्पडिलेहिय च भे, 25

जं ण तुब्भे एवमाइक्खह एव भासह एव पन्नवेह एवं परूवेह. सव्वे... दोसो' । अणारियवयण-मयं । (५) वयं पुण एवमाइक्खामो एव भासामो एव पन्नवेमो एव परूवेमो. सव्वे पाणा

४ न हन्तव्वा न अज्जावेयव्वा न परियावेयव्वा न परिघेत्तव्वा न उद्वेयव्वा; ' एत्थ पि जाणहः नत्थेत्थ दोसो । ' आरिय-वयणमेय ” । पुव्व निकाय समय पत्तेय-पत्तेय पुच्छि-

स्सामो:—“ हं भो पावाडया ! किं भे साय दुक्ख उयाहु आसाय ? ” समिया-पाडिवन्ने यावि 30 एव वूया:—“ सव्वेसि पाणाण ४ असाय अपरिणिग्वाण महव्वभय दुक्ख ” ति—ति वेमि ॥

४-३

(१) उवेह ण्ण वरिहिया य लोम ।
मे मज्ज-लोमनि जं केउ विन्त् ;

अणुवीद पास निविगत-दण्डा
जे केउ मत्ता पलिय चर्यान्ति ।

5

नरा सुय च्चा भम्मविउ पि अज्ज
' आरम्मज दुग्गमिण ' ति नच्चा

एवमाहु मम्मसदमिणो (२) ते मज्जे पावाइया;
दुग्गवस्स वग्गला परिउसुटाएरन्ति;

10

' इति कम्म परिशाय सव्वमो ' । एउ आणा-नर्या पण्डिण अनिदे
एग्गमप्पाण सोपेहाण धुणे म्मरंरम,

नसेहि अप्पाण, जरेहि अप्पाण
जहा जुण्णाए नट्टाए एव्ववाही पमाथर ।

एवमत्त-समाहिण अनिदे
विमिञ्च कोह आविउम्मणणे

15

इम निरुद्धा'उय मनेहाण,
दुक्ख च जाण अट्ट दाग्गमिम्म;

पुढो फासाइ च फासए
लोम च पास विप्फण्णमाण,

(३) जे निज्जुडा पावेहिं कम्मोहि अनियाणा ते धियाहिया ।
तम्हा'इविउजो नो पणित्तजलेउजासि—पि वेमि ॥

20

४-४

(१) आवाँलए पवाँलए निष्पीलए
जहिता पुव्व-संजोग

हिच्चा उव्वसम;
तम्हा अविमणे धीरे

25

सारए समिए सहिए सया जए—दुरणुचरो मग्गो वीराण अनियट्ट-गामीण—
विमिञ्च मत्त-सोणिय ।

(२) एम पुरिसे दविए धीरे आयाणिउजे धियाहिए,
जे धुणाट समुत्तय

30

वसित्ता वम्मचेरसि ।
नेत्तेहिं पल्लिच्छन्नेहिं

आयाण-सोय-गढिए बाले अब्बोच्छिन्न-वन्धणे अणभिकन्त-सजोए,

तमांसि अविजाणओ

आणाए लम्भो नत्थि ति वेमि,

(३) जस्त नत्थि पुरा पच्छा, मज्जे तस्त कुओ सिया ?
से हु पन्नाणमन्ते बुद्धे आरम्भोवरए;

सम्ममेय ति पासहा ।

5

जेण वन्धं वह घोर परियावं च दारुण

पलिच्छिन्दिय वाहिरग च सोयं

निकम्म-इसी इह मच्चिएहि,

कम्मुणा स-फलं दहुं तओ निज्जाइ वेयवी ।

(४) जे खलु भो वीरा समिया सहिया सया जया संघड-दंसिणो आओवरया 10
अहा-तह लोग उवेहमाणा,

पाईणं पडीण दाहिण उदीण इति, सच्चंसि परिविच्चिड्डियु, साहिस्तामो नाण वीराण
समियाण सहियाण सया जयाणं संघड-इसीण आओवरयाण अहा-तहा लोग समुपेहमाणणं ।
किमत्थि उवाही पासगस्त ? न विज्जइ, नत्थि—ति वेमि ॥

लो ग सा रो

(आवन्ती)

५-१

(१) आवन्ती केयावन्ती लोगंसि विप्परासुसन्ती अट्टाए अणट्टाए वा एएसु चेव 15
विप्परासुसन्ती । गुरू से कामा, तओ से मारस्त अन्तो; जओ से मारस्त अन्तो, तओ से
दूरे । नेव से अन्तो, नेव से दूरे । से पासइ फुसियमिव कुसग्गे पुणुव निवइयं वाएरियं

एव बालस्त जीविय मन्दस्त अविजाणओ ।

कूराइं कम्माइं वाले पकुवमाणे

तेण दुक्खेण मूढे विप्परियासमेइ,

20

मोहेण गव्व मरणाइ एइ,

‘ एत्थ मोहे पुणो-पुणो ’ । संसयं परिजाणओ संसारे परिज्ञाए भवइ; संसय अपरि-
जाणओ ससारे अपरिज्ञाए भवइ ।

जे छेए, सागारियं न सेवए,

कट्ठु एवमवयाणओ विइया मन्दस्त वालिया लद्धा हुरत्था ।

25

पडिलेहाए आयमेत्ता अणासेवणाए—ति वेमि ।

(२) पासह एगे

रूवेसु गिद्धे परिणिज्जमाणे,

‘ एत्थं फासे पुणो-पुणो ’ ।

आवन्ती केयावन्ती लोगंसि आरम्भजीवी, एएसु चेव आरम्भजीवी

1 30

एत्थ वि वाले परिपच्चमाणे

रमइ पावेहिं कम्मोहिं

असरण ' सरण ' ति मत्तमाणे ।

इहमेगोसिं एग-चरिया भवइ । (३) से बहु-नोहे बहु-माणे बहु-भाए बहु-लोभे, बहु-ए ५ बहु-नडे बहु-सढे बहु-सकप्पे आसव-सद्धी पलिओच्छत्ते; उट्टिय-वाय पवयमाणे—' मा मे केइ अदक्खू ' । अन्नाण-पमाय-दोत्तेण सयथ मूढे धम्म नाभिजाणइ ।

अट्टा पया, माणव, कम्म कोविया,

जे अणुवरया अविज्जाए पलिमोनखमाहु; आवट्टमेव अणुपरियट्टन्ति—ति वेमि ॥

५-२

(१) आवन्ती केया'वन्ती लोमासि अणारम्म-जांवी, एणसु चेव अणारम्मजांवी ।

10

एत्थोवरए त ओसमाणे

' अय सधी ' ति अद्व-सूखू, जे ' इमस्स विग्गहस्स अयं एणे ' ति अत्तेसि ।

एस मग्गे आरिएहिं पवेइए ।

(२) उट्टिए नो पमायए ।

15

' जाणित्तु दुक्ख पत्तेय-सायं ' ;

पुढो-छन्दा इह माणवा—पुढो दुक्ख पवेइयं ।

से अविहिंसमाणे अनवयमाणे

पुढो फासे विपणोहए, एस सभिया-परियाए वियाहिए ।

20) वीरे : ' ते फासे पुट्टे'हियासए ' । से पुव्वं पेय पच्छा वेव भेउर-धम्म विद्धसण-वम्म अधुव अन्नितिय असासय चयावचइयं विपरिणाम-धम्म पासह । एवरूव-सधि समुवेहमाणस्स एगाय-यण-रयस्स इह विप्पमुक्कस्स नत्थि मग्गे विरयस्स—ति वेमि ।

(४) आवन्ती केया'वन्ती लोमासि परिग्गहावन्ती . से अप्प वा बहु वा अणु वा थूल वा चित्तमन्त वा अचित्त वा, एणसु चेव परिग्गहावन्ती, एयदेवेगोसिं महब्भय भवइ ।

25

लोग-विच च ण उवेहाए, एए संगे अविजाणओ,

' से सुप्पड्डिवुद्ध सूवणीय ' ति नच्च

पुरित्ता ! परम-चक्खू विप्परकम एणसु चेव वम्मचेरं ! ति वेमि;

(५) " से सुय च मे अज्जथ च मे " .

वन्ध-प्पमोक्खो तुज्ज'ज्जत्थेव ।

30

एत्थ विरए अणगारे दीह-राय तिइक्खए;

पमत्ते वहिया पास, अप्पमत्ते परिव्वए ।

एय मोण सम्मं अणुवासेज्जासि—ति वेमि ।

५-३

(१) आवन्ती केया'वन्ती लोगंसि अपरिग्गहावन्ती, एएसु चैव अपरिग्गहावन्ती ।

सोच्चा वइ मेहावीं पण्डियाण निसामिया

—सामियाए धम्मे आरिएहिं पवेइए—“जहेत्थ मए संधी झोसिए, एव अन्नत्थ; संधी दुज्जोसए भवइ । तम्हा वेमि” :

नो निण्हवेज्ज वीरियं ।

5

(२) जे पुब्बुट्टायी नो पच्छा-निवाई, जे पुब्बुट्टाई पच्छा-निवाई, जे नो पुब्बुट्टाई नो पच्छा-निवाई

से वि तारिसए सिया, जे परिन्नाय लोगमन्नेसिए ।

एय नियाय सुणिणा पवेइय,

इह आणा कंखी पण्डिए अनिहे पुब्बावर-राय जयमाणे

10

सया सील सोंपेहाए सुणिया भवे अकामे अज्जञ्जे ।

इमेण चैव जुज्जाहि ! किं ते जुज्जेण वज्जओ ?

जुद्धारिहिं खल्ल दुल्लभं ।

जहेत्थ कुसलेहिं परिन्ना-विवेगे भासिए ।

सुए हु वाले गव्भाइ रिज्जइ;

(३) ‘ अस्सि चैय पवुच्चई ’ । रुवसि वा छणांसि वा ‘ से हु एगे संविद्धभए सुणी ’ 15

अन्नहा लोगसुवेहमाणे

‘ हाति कम्म परिन्नाय सव्वसो से न हिंसइ’,

सजमई, नो पगव्भई ।

(४) उवेहमाणो पत्तेय-सायं वण्णाएसी

20

नारभे कचण सव्व-लोए,

एग-प्पसुहे विदिस-प्पइण्णे

निव्विण्ण-चारी अरए पयासु ।

से वसुमं सव्व-समन्नागय-पन्नाणेण अप्पाणेण अकरणिज्ज पावं कम्मन्त नो अन्ने-
सी । जं सम्म ति पासहा, त मोण ति पासहा; ज मोण ति पासहा त सम्म ति पासहा । न 25
इम सक्क सिदिलेहिं आइज्जमणोहिं गुणासाएहिं वक-समायारेहिं पमत्तेहिं गारमावसन्तेहिं ।

(५) सुणी मोण समायाए धुणे कम्म-सरीरग;

पन्त ल्ह च सेवन्ती वीरा सम्मत्त-दसिणो ।

एस ओइतरे सुणी तिण्णे मुत्ते विरए चियाहिए—सि वेमि ॥

५-४

(१) गामाणु-गामं दूइज्जमाणसत्त

30

दुज्जाय दुप्परकन्त भवइ आवियत्तस्स भिक्खुणोः

वयसा वि एगे वुइया कुप्पन्ति माणवा,

उन्मयमाणे य नरे महया मोक्षेण सुजगद्—

(२) सनाहा बह्वे शुजो दुरद्वमा अजाणओ अपामओ ।

एय ते मा होउ । एय वुसठम्भ दसणं,

तद्धिद्वीणं तम्भुवाणं नत्पूरजारे तस्सन्ती तच्चिवेसणे

जय-विशारी चित्त-मिपार्डं

पन्थ-निज्झार्डं वल्लि वाट्टिरे

पासिय पाणे गन्धेज्जा ।

(३) से अभिक्कममाणे पट्टिक्कममाणे, सल्लुक्केमाणे पमारमाणे

विनियट्टमाणे सपल्लिमज्जमाणे ।

10 एगया गुण-समियस्स शियओ काय-सकामं अणुचिण्णा एगय्या पाणा उद्दायन्ति; इह
लोग-वेयण-वेज्जावट्टिय ।

ज जालट्टी-क्कय कम्मं, त परिज्जाय विवेगमेद;

एय से अप्पमाणेण विवेग किट्ठ वेयवी ।

(४) से प्हय-दसी प्हय-परिज्जाणे उवसन्ते सद्धिणं सया जए दुडं

विप्पच्चिवेणं जप्पाणं ' किन्नेस जणो करिस्सद ?

एस से परमारामे, जाओ लोगम्मि इत्थिजो ' ।

15 मुणिणा हु एयं पवेश्य : (५) उज्जाहिज्जमाणे गाम-धम्मोहं जविनिव्वक्कासए,
अवि ओमोयरिय कुज्जा, अवि उट्ट ठाण ठाणज्जा, जवि मामाणुगामं दूद्वज्जेज्जा, अवि माहार
वोच्चिन्देज्जा, अवि चए इन्दीसु मण : पुव्व दण्ठा पच्छा फासा, पुव्व फासा पच्छा दण्ठा—इच्चेए
20 ऋद्धा सगज्जा भवन्ति । पट्टिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए—त्ति वेमि ।

से नो काहिए नो पामणिणं नो मपमारणं नो मानणं नो कय-किरिए; ' वड-सुत्ते
अज्झप्प-ससुत्ते ' परिवज्जए सया पाव । एय मीणं समणुवासेज्जामि—त्ति वेमि ।

५-५

(१) से वेमि त-जहा ।

अवि हरए पडिपुण्णे समसि भोमं चिट्ठइ,

25 उवसन्त-रणं सारदस्समाणे से चिट्ठइ सीयमज्जा-णाए ।

से पाम सव्वओ सुत्ते पास लोए महेसिणो,

जे य पत्ताणमन्ता पवुद्धा आरम्मोवरया;

समम्मेय ति पासहा ।

' कालस्स कखाए परिव्वयन्ति'—त्ति वेमि ।

30 (२) विगिच्छ-समावन्नेण अप्पाणेण नो लभडं समाहिं । ' सिया वे'गे अणुग-
च्छन्ति ?, असिया वे'गे अणुगच्छन्ति ? ' अणुगच्छमाणोहिं अणुगच्छमाणे कहां न निव्विज्जे ?

(३) तमेव सच्च नीसक, ज जिणोहिं पवेश्य ।

सद्धिस्स ण समणुसस्स सपव्वयमाणस्स ' सामिय ' ति मन्नमाणस्स एगया समिया

होइ, 'स०' ति म० ए० 'असमिया' हो०, 'असमियं' ति० म० ए० समिया हो०, 'अ०' ति म० ए० असमिया होइ। 'समिय' ति म० 'समिया वा असमिया वा', समिया होइ उवेहाए, 'असमिय' ति म० 'स० वा अ० वा' असमिया होइ उवेहाए। उवेहमाणं अणुवेहमाणं वूया : "उवेहाहि समियाए"। इच्चेवं तत्थ सधी शोसिए भवइ।

(४) से उट्टियस्त ठियस्त गइ समणुपस्तह,

5

एत्थ वि बाल-भावे अप्पाण नो उवदसेज्जा।

तुम सि नाम त चेव ज 'हन्तव्वं' ति मन्नसि।

तुम सि नाम त चेव जं 'अज्जावेयव्व' ति मन्नसि, ... 'परियावेयव्व' ...

'परिवेतव्व' ... 'उद्देयव्व' ... 'अञ्जू चयपडिवुद्ध-जीवी'।

तम्हा न हन्ता न वि घायए।

10

(५) अणुसवेयण अप्पाणेणं 'ज हन्तव्वं' ति नाभिपत्थए।

जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया : जेण विजाणइ से आया। त पडुच्च पडिसखाए एस आया-वाई।

समियाए परियाए वियाहिए—त्ति वेमि ॥

५-६

(१) अणाणाए एगे सोवट्टाणा, आणाए एगे निरुवट्टाणा एयं ते मा होउ । 15
एयं कुसलस्त दंसणं, 'तट्टिणीए तम्मुत्तीए, तप्पुरक्कारे तस्सन्नी तन्नियेसणे ।'

अभिभूय अद्दक्खू अणभिभूए; पहू निरालम्बणयाए जे मह अवही-मणे।

पवाएण पवाय जाणेज्जा सह-सम्मुइयाए पर-वायरणेणं अन्नोसिं वा अन्तिए सोच्चा,

(५) निद्देस नाइवत्तेज्जा मेहावी।

सुपडिलेहिय सव्वओ सव्वयाए सम्ममेव समभिजाणिया।

20

इहाराम परिन्नाय अट्टाणि-गुत्तो परिव्वए;

निट्टियट्टी वीरे आगमेणं सया परक्कमेज्जासि—त्ति वेमि।

(२) उट्टु सोया अहे सोया तिरिय सोया वियाहिया;

एए सोया वियक्खाया जेहिं सग ति पासहा।

आवट्ट तु उवेहाए एत्थ विरमेज्ज वेयवी,

25

चिणइत्तु सोय निक्खम्म

एस महमकम्मा जाणइ पासइ, पडिलेहाए नावक्खइ; (३) इह आगइ गइ परिन्नाय अच्चेइ जाइ मरणस्त वट्टमगं विक्खाय-रए;

सव्वे सरा नियट्टन्ति।

तक्का जत्थ न विज्जइ, मई तत्थ न गाहिया।

30

ओए अप्पइट्टाणस्त खेयत्ते (४) से न दीहे न हस्से न वट्टे न तसे न चउरसे न परिमण्डले, न किण्हे न नीले न लोहिए न हालिहे न सुक्किले, न सुरभिगधे न दुरभिगधे, न तित्ते न कडुए न कसाए न अविले न महुरे, न कक्खडे न मउए, न गुरुए न लहुए, न सीए न उण्हे,

न निद्वे न लुक्खे, न काऊ, न ररे न संगे, न इत्थी न पुरिसे न अन्नहा । 'परिसे' सत्ते उवमा
न विज्जइ । अरुत्थी सत्ता, अपयस्स पयं नत्थि । से न सद्दे न रूत्ते न गन्धे न रसे न फासे इच्चे-
यावन्ति—त्ति वेमि ॥

धु यं

६-१

(१) ओबुज्झमाणे इह माणवेसु

आघाइ से

नरे जस्सि'माओ जार्ड्यो सत्त्वओ सुपल्लेहिहयाओ भवन्ति, अन्घाइ से धुयं णाणमणेत्तिसि ।

से किट्ठ तेसि ससुट्टियाण निदिखत्त-दण्डाण

समाहियाण पत्ताणमन्ताण इह सुत्ति-मग्ग ।

एव पेगे महावीरा विपरकमन्ति,

पासह-एगे अवसायमाणे अणत्त-पत्ते ।

(२) से वेमि . से जहा वि कुम्मे हरए विनिविट्ठ-चित्ते

पच्छन्न-पलासे उम्मुगं से नो लभइ ।

भङ्गगा इव पत्तिवेस नो चयन्ति,

एव पेगे अणेग-रूवेहिं कुल्लेहिं जाया

रूवेहिं सत्ता क्लुण थणन्ति,

नियाणओ ते न लभन्ति मोक्खं ।

अह पास तेहिं कुल्लेहिं आयत्ताए जाया

१. गण्डी अदु वा कोट्टी रायसी, अवमारिय

फाणिय शिम्मिय चैव कुणिय खुज्जिय तथा,

२. उयरिं च पास मुत्तिं च सुणिय-च गित्तासिण

वेवय पीढ-सोप्पि च सिल्लिवइ महु-मेहिण—

३. सोलस एए रोगा अन्खाया अणुपुव्वसो ।

अह ण फुत्तन्ति आयका फासा य अममज्जसा ।

४. मरण तेसिं सोपेहाए उववाय चवण च नच्चा

परिपाग च सोपेहाए त सुणेह जहा तथा ।

(३) सन्ति पाणा अघा तमासि विधाहिया ।

तामेव सइमसइमइयच्च उच्चावए फासे पडित्तवेएइ ।

बुद्धेहे'य पवेइय ।

(४) सन्ति पाणा वासगा रसगा उदए उदय-चरा आगात्त-गाभिणो—

पाणा पाणे किल्लेसन्ति . पास लोए महब्भय ।

वहु-दुक्खा हु जन्तवो : सत्ता कामोहिं माणवा ।

अवशेण वह गच्छन्ति सरीरेण पभगुरेण;

अद्वे से बहु-दुक्खे इती वाले पकुव्वेइ;

एए रोगे वहू नच्चा आउरा परिधावए ।

“ नाल पास ”—अल तवे'एहिं !

एय पास, मुणी, महवभय, नाइवाएज्ज कचण ।

5

आयाण भो सुस्सुस भो !

धूय-वायं पवेएस्तामि ।

(५) इह खल अत्तत्ताए तेहिं-तेहिं कुलेहिं अभिसेएण अभिसभूया अभिसंजाया
अभिनिव्वट्ठा अभिसवुद्धा अभिसवुद्धा अभिनिक्खन्ता अणुपुव्वेण महाःमुणी । तं

परक्कमन्त परिदेवमाणा

10

“ मा णे चयाहि ” इति ते वयन्ति;

(६) छन्दोवणीया अज्ज्ञोववन्ना

अक्कन्द-कारा जणगा स्यन्ति ।

अतारिसे मुणी ओहतरए, जणगा जेण विप्पजढा; सरण तत्थ नो समेइ । किह नाम
से तत्थ रमइ ? एयं नाणं सया समणुवासेज्जासि ति—वोमि ॥

15

६-२

(१) आउर लोग मायाए

चइत्ता पुव्व-सजोग

हिच्चा उवसम

वसित्ता बम्भचेरासि

वसु वा अणुवसु वा

20

जाणित्तु धम्मं जहा-तहा

अहे'गे तमच्चार्इ

कुसीला वत्थ पडिगाह कम्बल पाय-पुञ्जण विओसिज्जा अणुपुव्वेण अणहियासेमाणा
परीसहे दुरहियासए । कामे ममायमाणसस इयार्णि वा मुहुत्ते वा अपरि-माणाए भेओ एवं से
अन्तराइएहिं कामेहिं आकेवलिएहिं; अविइण्णा चे'ए ।

25

(२) अहे'गे धम्ममायाए—

आयाण-पमिइ-सुप्पणिहिं चरे अपलीयमाणे द्दडे;

सव्व'गेहिं परिन्नाय एस पणए महा-मुणी,

अइयच्च सव्वओ सग

' न महं अत्थी ' ति । इति ' एगो अहमासि ' जयमाणे

30

एत्थ विरए अणगारे सव्वओ मुण्ढे रीयए ।

जे अचेले परिवुसिए सच्चिक्खइ ओभोयरियाए, से

- अकृष्टे व तण व तमिण वा
 पलिय-प्यगन्थे अदु वा पगन्थे जतठेहिं
 सह-फासेहिं । इति संज्ञाप एगयरे धलथरे
 अभिनाय तिररसमाणे परिञ्जण ।
- 6 जे य हिरी । जे उ अतिरीमाणे
 चेच्चा सन्व विसोधिथं सफामे फामे नगिय-रनणे ।
 (३) एए भो नगिणा बुचा, जे लोगनि अणामगण-अग्निणो
 आणाए मामग धम्मा, एम उत्तर-आए इह माणवाण विद्याहिण ।
 एत्थोवरए त झोसमाणे
- 10 आयाणिञ्ज परिनाय परियाणण विभिन्न ।
 इहमेगेसि एग-वरिया होइ । तदिय'यरा-इयरेहि कुन्नेहिं मुदे'मणाए सन्वे'मणाए
 से मेहावी परिञ्जण;
 सुब्धि वा अदु वा दुब्धि अदु वा तत्थ मेरवा'
 ' पाणा पाणे किल्लेसन्ति ' । ते फामे ' पुट्ठो वीरे'हियासएज्जामि'—त्ति वेमि ॥
-
- ६-३
- 15 (१) एय सु, सुणी, आयाण ।
 ' सया नुअक्खाम-ग्ग्मे, ' ' विभूय-कप्पे निज्जोसइत्ता ' । जे अचेले परिजुभिण, तन्त पं
 भिक्खुस्त नो एव भवइ: ' परिजुण्णे मे वन्थे; वथ जाइम्मामि, सुवं जाइम्मामि, सुइ जाइम्मामि,
 सधिस्तामि, मिब्धिस्तामि, उक्खसिस्तामि, बुग्गसिस्तामि, परिहिस्तामि,
 पाळणिस्तामि ' । (२) अदु वा तत्थ परइमन्त मुज्जो अचेलं तण-फामा फुत्तन्ति, नीय-फा०
 20 फु०, तेओ-फा० फु०, दसमसग-फा० फु०—एगयरे जतथरे विक्ख-रूवे फासे अहियात्तेइ अचेले
 लाघवमागममीणे तवे से अभिसमन्नाए भवइ जहे 'य भगवया पवेश्य, तगेय अभिसमेच्चा
 सव्वओ सव्वयाए समत्तमेव सहभिजाणिया ।
 एव तेत्ति महा-वीराणं चिर-रायं पुग्वाइं वासाइ शीय-माणानं दवियाण
 पास'हियात्तिय;
- 25 आगय-पत्ताणानं फिस्ता वाहा भवन्ति पवणुए य मंस-त्तोणिए ।
 विस्सेणी-कट्टु परिनाय एस तिण्णे सुत्ते विरए विद्याहिए—त्ति वेमि ।
 (३) चिरयं भिक्खु शीयन्त चिर-राओत्तिय अरइं तत्थ किं विघारए ?
 सधेमाणे ससुट्टिए;
 जहा से दविये असदीणे एव से धम्मे आरिय-देसिए ।
- 30 ते अणवकखमाणा अणइवाएमाणा दइया मेहाविणो पण्डिया । एवं तेत्ति भगवओ अणु-
 ट्ठाणे । जहा से दिया-पोए, एव ते
 सिस्ता दिया य राजो य अणुपुग्गेण वाइय—त्ति वेमि ॥

६-४

(१) एव ते 'सिस्ता दिया य राओ य अणुपुब्बेण वाइया' तेहि महावीरेहिं पन्नाणमन्तेहिं, तेस'न्तिए पन्नाण उवल्लभ हिच्चा उवसम कारुसिय समाइयन्ति, 'वसित्ता वम्भ-चेरंसि' आण 'तं नो' त्ति मन्नमाणा आघाय तु सोच्चा निसम्म 'समणुन्ना जीविस्तामो' एगे निक्खम्म ते

असभवन्ता विडज्जमाणा

5

कामेहिं गिद्धा अज्जोववन्ना

समाहिमाघायमञ्जोसयन्ता

सत्थारमेव फरुस वयन्ति ।

सीलमन्ता उवसन्ता सखाए रीयमाणा

'असीला' अणुवयमाणस्त विड्या मन्दस्त बालिया ।

10

नियट्टमाणा वे'गे आयार-गोयरमाइक्खन्ति:

नाण-ब्भट्टा दसण-लूसिणो नममाणा एगे जीविय विप्परिणामेन्ति;

पुट्टा वे'गे नियट्टन्ति जीवियस्सेव कारणा ।

निक्खन्त पि तेसिं दुण्णिक्खन्त भवइ । (२) 'वाला-वयण्णिज्जा हु ते नरा; 'पुणो-पुणो जाइ पगप्पेन्ति' ।

15

अहे'सभवन्ता विद्वायमाणा

"अहमसीति" विउक्कसे, उदासीणे 'फरुसं वयन्ति' 'पलियप्पगन्थे अदु वा पगन्थे अतहेहिं त मेहावी जाणेज्जा धम्म । अहमट्टी "तुमं सि नाम वाले", आरम्भट्टी अणुवयमाणे: "हण पाणे !" घायमीणे हणओ यावि समणुजाणमीणे:

"घोरे धम्मे उदीरिए !"

20

उवेहइ ण अणाणाए, एस विसण्णे वितण्डे वियाहिए—त्ति वेमि ।

(३) 'किमणेण भो जणेण करिस्तामि ?'

त्ति मन्नमाणा एव पे'गे विइत्ता ।

मायर पियर हेच्चा नायओ य परिगहं

वीरायमाणे समुट्टाए

25

अविहिंसे सुव्वए दन्ते पास दीणे उप्पइए पडिवयमाणे ।

वसट्टा फायरा जणा लसगा भवन्ति ।

अहमेगेसिं सिलोए पावए भवइ: "से समण-विब्भन्ते, से समण-विब्भन्ते !"

पासहे'गे समन्नागएहिं असमन्नागए, नममाणोहिं अनममाणे, विरएहिं अविरए,

दविएहिं अदविए । अभिसमेच्चा पण्डिए मेहावी

30

निड्डियहे वीरे आगमेण सया परक्कमेज्जासि—त्ति वेमि ॥

६-५

(१) से गिहेसु वा गिहन्तरेसु वा गामेसु वा गामन्तरेसु वा नगरेसु वा नगरन्तरेसु

वा जणवएमु वा जणवयन्तरेसु वा सन्ते'गड्या 'जणा लूसगा भवन्ति, ' अट्ट वा फासा फुसन्ति ते फासे ' पुट्टो वीरो'हियासए' ।

(२) ओए समिय-इसणे

दय लोगसस जाणित्ता

5 पाईण पटीण दाहिणं उदाण

आइस्खे विमए विट्टे वेयवी;

से उट्टिएसु वा अणुट्टिएसु वा सुसुसमाणेसु पवेयए (३) सन्ति विरइ उवसम निव्वाणं सोय अज्जविय महविय लाघविय अणइ-वत्तिय; सव्वेसि पाणाण सेव्वेसि भूयाणं सव्वेसि जीवाण सव्वेसि सत्ताण अणुवीइ भिक्खु धम्ममादवेउज्जा । (४) अणुवीइ भिक्खु-धम्ममा इक्ख-
10 माणे नो अत्ताण आसाएज्जा नो पर आसाएज्जा, नो अन्नाइ पाणाइ भूयाइ जीवाइ सत्ताइ आसाएज्जा : से अणासायए अणासायमाणे ।

वज्जमाणण पाणाण

भूयाण जीवाण सत्ताण ' जहा से दवे असदीणे ' एवं

से भवइ सरण महा-सुणी ।

15 (५) एव से उट्टिए ठियप्पा

अनिहे अचले चले अवाहि-लेसे परिव्वए ।

सखाय पेसल धम्म दिट्ठिम परिणिव्वुडे ।

तम्हा सगं ति पासहा ।

गन्थेहि गट्टिया नरा, विसण्णा काम-विप्पिया ।

20 तम्हा लहाओ नो परिवित्तसेज्जा, जसि'मे आरम्मा सव्वओ सव्वयाए सुपरिन्नाया भवन्ति, जेसि'मे लूसिणो नो परिवित्तसन्ति । से वन्ता कोह च माण च माय च लोभ च

एस तिउट्टे वियाहिए-त्ति वेमि ।

(६) कायसस विजोवाए एस सगाम-सीसे वियाहिए ।

25 से हु पारगमे सुणी ।

अविहम्ममाणे फलगावयट्ठी

कालोवणीए कखेज्ज काल जाव सरीर-भेओ-त्ति वेमि ॥

‘ महापरिन्ना ’ नाम सप्तममध्ययनं विनष्टमिति
प्राचीनः प्रवादः श्रूयते ।

वि मो हो

८-१

(१) से वेमि : समणुन्नस्त वा असमणुन्नस्त वा असण वा पाण वा खाइम वा साइम वा वत्थं वा पडिगह वा कम्बल वा पाय-पुञ्जणं वा नो पाएज्जा नो निमन्तेज्जा, नो कुज्जा वेयावडियं परं आढायमीणे-त्ति वेमि ।

(२) धुवं चैय जाणेज्जा असण वा जाव पाय-पुञ्जण वा लभिय नो लभिय, भुञ्जिय नो भुञ्जिय-पन्थ विवत्तूण विवक्कम्म विवत्त धम्म शौसेमाणे समेमाणे पाएज्जा निम-५ न्तेज्जा, कुज्जा वेयावडियं पर अणाढायमीणे-त्ति वेमि ।

(३) इहमेगेसिं आयार-गोयरे नो सुनिसन्ते भवइ । ते इह आरम्भट्ठी, अणुवयमाणा : “ हण पाणे । ” घायमीणा हणओ यावि समणुजाणमीणा, अदु वा अदिन्नमाइयन्ति अदु वा वायाओ विवज्जन्ति, त-जहाः-अत्थि लोए, नत्थि लोए; धुवे लोए, अधुवे लोए; साइए लोए, अणाइए लोए; स-पज्जवसिए लोए, अपज्जवसिए लोए; ‘ सुकडे ’ त्ति वा ‘ दुकडे ’ 10 त्ति वा, ‘ कल्लाणे ’ त्ति वा ‘ पावए ’ त्ति वा, ‘ साहु ’ त्ति वा ‘ असाहु ’ त्ति वा, ‘ सिद्धि ’ त्ति वा ‘ असिद्धि ’ त्ति वा, ‘ निरए ’ त्ति वा ‘ अनिरए ’ त्ति वा । जमिण विप्पडिवन्ना मामग धम्म पन्नवेमाणाः एत्थ वि जाणेह ‘ अकस्मात् ’ । एव तेसिं नो सुय-क्खाए नो सुपन्नते धम्मे भवइ-ते जहे’य भगवया पवेइय आत्तु-पन्नेण जाणया पासया-अदु वा गुत्ती वओ-गायिरस्त-त्ति वेमि । 15

(४) सव्वत्थ सम्मय पाव; तमेव उवाइक्कम्म एस मह विवेगे वियाहिए ।

गामे वा अदु वा रण्णे

नेव गामे नेव रण्णे

धम्ममायाणह पवेइय माहणेण मईमया

जामा तिण्णि उदाहिया, जेसु इमे आरिया सम्बुज्जमाणा ससुडिया । 20

जे निव्वुडा पावेहिं कम्महिं अनियाणा ते वियाहिया ।

उडु अह तिरिय दिसासु

सव्वओ सव्वावन्तो च ण पडिक्क जीवेहिं कम्म समारम्भेण-त परिन्नाय मेहावी नेव सयं एएहिं काएहिं दण्ड समारभेज्जा, नेव’न्नेहिं एएहिं काएहिं दण्ड समारम्भावेज्जा, ने’वन्ने एएहिं काएहिं दण्ड समारम्भन्ते वि समणुजाणेज्जा । जे व’न्ने एएहिं काएहिं दण्ड समारभन्ति, तेसिं पि वयं 25 लज्जामो । त परिन्नाय मेहावी त वा दण्ड अन्न वा दण्ड—

नो दण्ड-भी दण्ड समारभेज्जासि-त्ति वेमि ॥

८-२

(१) से भिक्खु परकमेज्ज वा चिट्ठेज्ज वा निसिएज्ज वा तुयट्ठेज्ज वा सुसाणसि वा सुत्तागारसि वा गिरि-गुहसि वा रुक्ख-मूलासि वा कम्म पाययणासि वा हुरत्था वा । काहीचि विह-

रमाण त भिक्खु उवत्तकमित्तु गाहावर्द्ध वृया.—“ आउसन्तो समणा । अहं खलु तव अट्टाए असण वा ४ वत्थ वा ४ पाणाइ ४ समारब्भ समुद्धिंस्त फीयं पामिच्चं अच्चेज्ज अनिसद्धं अमिहइ आहट्ठु च्छेणमि, आवसह वा समुस्सिणामि, से मुज्जह वसह, (२) आउसन्तो समणा !” भिक्खू त गाहावड समणस सवयस पडियाउक्खे.—“ आउसन्तो गाटावर ! नो खलु ते वयण ५ आढामि, नो खलु ते वयण परिजाणामि, जो तुम मम अट्टाए असण वा ४ वत्थ वा ४ पाणाइ ४ समारब्भ.... आहट्ठु च्छेणमि, आवसह वा समुस्सिणामि । से विरओ, आउसो, गाहावड एयस्ताकरणयाण ” ।

(३) से भिक्खू परकमेज्ज वा जाव हुरत्या वा गाहावर्द्ध आयगयाण पेहाए असण . . आहट्ठु च्छेणइ, आवसह वा समुस्सिणाइ, भिक्खु त परिघासेउ । त च भिक्खू जाणेज्जा 10 सह-सम्मुइयाए परवागरेणेण अतोमि वा अन्तिए सोच्चा : ‘अथ खलु गाहावर्द्ध मम अट्टाए असण....समुस्सिणाइ’ । त च भिक्खू पडिलेहाए जागमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए—सि भेमि ।

(४) भिक्खु च खलु पुट्टा वा अपुट्टा वा—जे इमे आहच्च गन्था फुमन्ति “से हन्ता, हणह सणह छिन्दह दहह पयह आलुम्पह विलुम्पह सहस करेह विप्परासुमह !” ते फासे ‘ पुट्टे वीरो अहियासए ’ ।

16 अट्टु वा आयार-गोयर आइक्खे तथिया णमणेत्तिस,

अट्टु वा वड-मुत्तीए

गोयरस्त अणुपुब्बेण सम्म पडिलेहाए आय गुत्ते ।

‘ बुद्धेहे’य पवेइय. ’ ।

स समणुत्ते असमणुत्तस्त असण वा... (यथा २७, १-३.) .. पर आढायमीणाए—सि वेमि ।

20 (५) ‘ धम्ममायाणह पवेइय माहणेण मर्दमया ’ । समणुत्ते समणुत्तस्त असण वा. (यथा २७, १-३ नतर नो न नगनीय) पर आढायमीणोत्ति वेमि ॥

८-३

(१) मज्झिमेण वयसा वि एगे सम्भुज्जमाणा समुद्धिया

सोच्चा चाई मेहावणि पण्डियाण निसामिया ।

समियाए धम्मे आरिण्हिं पवेइए ते अणवक्खमाणा अणइवाएमाणा अपरिग्गहमीणा नो 25 परिग्गहावन्ती । सव्वावन्ती च ण लोगसि—

निहया दण्ड पाणेहिं पाव कम्म अकुञ्चमाणे एसमह अगन्थे वियाहिए ।

(२) ओए जुइमस्त खेयन्ते उववाय चवण च नच्चा;

आहारोवचया देहा परीसह-पभगुरा ।

पासहे’गे सव्विन्दिण्हिं परिगिलायमाणेहिं ओए; दय दयइ जे सनिहाण-सत्थस्त 30 खेयन्ते । से भिक्खू कालन्ते वलन्ते मायन्ते खणन्ते त्रिणयन्ते समयन्ते ‘ परिग्गह अममायमणि ’ काले’णुट्टाई अपडिन्ते दुहओ ‘ छित्ता नियाइ ’ ।

(३) त भिक्खु सीयफास-परिवेवमाण-गाव उवत्तकमित्तु गाहावर्द्ध वृया —“ आउसन्तो समणा ! नो खलु ते गाम-धम्मा उव्वाहन्ति ? ” “ आउसन्तो गाहावर्द्ध ! नो खलु मे

गाम-धम्मा उब्बाहन्ति, सीय-फास च नो खलु अह सचाएमि अहियासेत्तए । नो खलु मे कप्पइ अगणि-काय उज्जालेत्तए वा पज्जालेत्तए वा, काय आयावेत्तए वा पयावेत्तए वा, अन्नेसि वा वयणाओ ” । सिया सेव वयन्तरस परो अगणि-काय उज्जालेत्ता कायं आयावेज्जा वा पयावेज्जा वा । त च भिक्खू पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए—ति वेमि ॥

८-४

(१) जे भिक्खू तिहिं वत्थेहिं परिवुसिए पाय-चउत्थेहिं, तस्स ण नो एवं भवइ : 5
‘ चउत्थ वत्थं जाइस्सामि ’ । से अहेसणिज्जाइ वत्थाइ जाएज्जा, अहा-परिग्गहियाइं वत्थाइ धारेज्जा, नो घोवेज्जा नो रएज्जा, नो धोय-रत्ताइ वत्थाइ धारेज्जा, अपल्लिउच्चमाणे गामन्तरेसु ओमचेलिए । एय खु वत्थ-धारिस्स सामगिय । अह पुण एव जाणेज्जा : ‘ उवा-इकन्ते खलु हेमन्ते, गिम्हे पडिवन्ने, ’ अहा-परिसुण्णाइ वत्थाइ परिद्वेज्जा, अहा-परिलुण्णाइं वत्थाइ परिठवेत्ता अदु वा सन्तरुत्तरे अदु वा ओमचेलिए अदु वा एग-साडे अदु वा अचेले 10
लाघविय आगममाणे तवे से अभिसमन्नागए भवइ । जहेय भगवया पवेइयं तमेव अभिसमे-
च्चा सव्वओ सव्वयाए समत्तमेव समभिजाणिया ।

(२) जस्स ण भिक्खुस्स एव भवइ : ‘ पुट्ठो खलु अहमासि, नाल अहमंसि सीय-
फासं अहियासेत्तए ’—से वसुम सव्व-समन्नागय-पन्नाणेण अप्पाणेण केइ अकरणाए आउट्टे,
तवस्सिणो हु त सेय ज सेणे विहमाइए । 15
तत्थावि तस्स काल-परियाए, से वि तत्थ वियन्त-कारए ।
इच्चेय विमोहाययण हिय सुह खम निस्सेस आणुगामिय—ति वेमि ॥

८-५

(१) जे भिक्खू दोहिं वत्थेहिं परिवुसिए पाय-तइएहिं, तस्स ण नो एव भवइ :
तइयं वत्थं जाइस्सामि ’ । से अहेसणिज्जाइ वत्थाइ जाएज्जा (यथा ६-१३,
नवर अदु वा सन्तरुत्तरे पाठो वर्जनीय , तथा वत्थधारिस्सं स्थाने तस्स भिक्खुस्स पाठः पठनीय :) 20
.... एव भवइ . ‘ पुट्ठो अबलो अहमंसि, नालमहमसि गिहन्तर-सकमण भिक्खायरिय गम-
णाए, ’ (२) से एव ववत्तस्स परो अभिहड असण वा ४ आहट्टु इलएज्जा; से पुव्वामेव
आलोएज्जा : “ आउसन्तो गाहावई । नो खलु मे कप्पइ अभिहडे असणे वा ४ भोत्तए वा
पायए वा अन्ने वा तहप्पगारे ” ।

(३) जस्स ण भिक्खुस्स अय पगप्पे.—‘ अह च खलु पडिन्नतो अपडिन्नतोहिं, 25
गिलाणो अगिलाणोहिं अभिक्ख-साहम्मिएहि कीरमाण वेयावडिय साइज्जिस्सामि, अह चावि
खलु अपडिन्नतो पडिन्नतस्स अगिलाणो गिलाणस्स अभिक्ख-साहम्मियस्स कुज्जा वेयावडिय
करणाए : (४) ’ आहट्टु परिन्न आनक्खेस्सामि आहड च साइज्जिस्सामि, 3आ० प० आ०
आ० च नो सा०, 3आ० प० नो० आ० आ० च सा०, 3आ० ० नो आ० आ० च

नो सा०, '—एव से अहा-किष्टियमेव धम्म समाभिजाणमाणे सत्ते विरण सुसमाहिय-लेस्ते ।
तत्थावि (यथा २९, १६) आणुगामिय—ति वेमि ॥

८-६

(१) जे भिक्खू एगेण वत्थेण परिवुत्तिए पाय-विइएण, तस्स नो एवं भवइ :
' विइयं वत्थ जाइस्सामि ' । से अहेसणिज्जं वत्थ जाएज्जा .. (यथा २९, ६-१३. नवर
५ जुण्णाइ वत्थाइ स्थाने जुण्णं वत्थं पठनीय, अपलि० गाम० ओम०, तथा अदु वा सन्तरुत्तरे अदु
वा ओमचेलेए वज्जनीय, तथैव वत्थधारिस्स स्थाने तस्स भिक्खुस्स भगनीय)... एवं भवइ :
' एगो अहमंसि ; न मे अत्थि कोइ न याहमवि कस्सइ, ' एव स एगाणियमेव अप्पाण
समभिजाणेज्जा ; लाघविय....(यथा २९, ११.)....समभिजाणिया ।

(२) से भिक्खू वा भिक्खुणी वा असणं वा ४ आहारेमाणे नो वामाओ हणु-
१० याओ दाहिण हणुय सचारेज्जा आसाएमाणे, दाहिणाओ वा हणुयाओ वामं
हणुय नो सचारेज्जा आसाएमाणे । ते अणासायमाणे लाघविय....(यथा २९, ११.)....
समभिजाणिया ।

(३) जस्स ण भिक्खुस्स एव भवइ : ' से गिलामि च खल्ल अह इमम्मि समए
इमं सरीरग अणुपुब्बेण परिवहित्तए, ' से अणुपुब्बेण आहार सवट्टेज्जा, अणुपुब्बेण आहार
१५ सवट्टेजा ' कत्ताए पयणुए किच्चा ' ।

समाहियच्चे फलगावयट्ठी

उट्ठाय भिक्खू अभिनिव्वुडच्चे

(४) अणुपविसित्ता गाम वा नगर वा खेड वा कन्नड वा मट्ठव वा पट्टण वा
दोण-सुह वा आगर वा आसम वा सन्निवेस वा निगम वा रायहाणिं वा तणाइ जाएज्जा, तणाइ
२० जाइत्ता से तमायाए एगन्तमवक्कमेज्जा, एगन्तमवक्कमित्ता अप्पण्डे अप्प-पाणे अप्प-वीए अप्प-हरिए
अप्पोसे अप्पुदए अप्पुत्तिंग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कहा-सन्ताणए पडिलेहिय २ पमज्जिय २ तणाइ
सन्थरेज्जा, तणाइ सन्थरेत्ता एत्थ वि समए इत्तिरिय कुज्जा ।

(५) त सच्च . सच्चा-वाई ओए तिण्णे छिन्न-कहकहे

आईयट्टे आणाईए चेच्चाण भेउर काय

२५ सविहुणिय विरूव-रूवे परीसहोवसग्गे अस्सि विसम्मणयाए भेरवमणुत्तिण्णे । तत्थावि....
(यथा २९, १६)....आणुगामिय '—ति वेमि ॥

८-७

(१) जे भिक्खू अचेले परिवुत्तिए, तस्स ण एव भवइ : ' चाएमि अह तण-फासं
अहियासेत्तए, सीय- फा० अ०, तेओ-फा० अ०, दंस-मसग-फा० अ०, एगयरे अन्नयरे विरूव-
रूवे फासे अहियासेत्तए; हिरिपडिच्छायण च'ह नो सचाएमि अहियासेत्तए, ' एव से कपइ
३ कडिवन्धण धारेत्तए । अदु वा तथ परक्कमन्त भुज्जो अचेल तण-फासा कुम्भन्ति, सीय- फा०
फु०, तेओ-फा० फु०, दसमसग-फा० फु०, एगयरे अन्नयरे विरूव-रूवे फासे अहियासेइ ।
अचेले लाघविय(यथा २९, ११).. समभिजाणिया ।

(२) 'जस्त ण भिक्खुस्त एव भवइ : ' अह च खलु अन्नोसि भिक्खूणं असण वा ष्ठ आहट्टु दलइस्सामि आहड च साइज्जिस्सामि, 'जस्त....द० आ० च नो सा०, 'जस्तनो द० आ० च सा०, 'जस्त....नो द० आ० च नो सा०, (३) अह च खलु तेण अहाइरित्तेण अहेसणिज्जेण अहाइ-परिग्गहिण्ण असणेण वा ष्ठ अभिक्ख साहम्मियस्स कुज्जा वेयावडिय करणाए, अहं चावि तेण....साहम्मिएहिं कीरमाण वेयावडिय साइज्जिस्सामि '— ५ (३) लाघवियं....(यथा २९, ११.)....समभिजाणिया ।

(४) जस्त ण भिक्खुस्त एव भवइ : ' से गिलामीं....(यथा ३०, १३-२३.).... समए कायं च जोगं च इरिय च पच्चक्खाएज्जा । त च सच्च....(यथा ३०, २३-२६).... आणुगामिय—ति वेमि ॥

८-८

- | | | |
|-----|---|----|
| १. | अणुपुब्बेण विमोहाइ जाइ धीरा समासज्ज वसुमन्तो मइमन्तो सव्व नच्चा अणेलिस | 10 |
| २. | दुविह पि विइत्ताणं बुद्धा धम्मस्स पारगा अणुपुब्बीए सखाए कम्मणाओ तिउट्टइ । | |
| ३. | कसाए पयणुए किच्चा अप्पाहारो तिइक्खए; अह भिक्खू गिलाएज्जा आहारस्सेव अन्तिय, | 15 |
| ४. | जीविय नाभिकखेज्जा मरण नो वि पत्थए: दुहओ वि न सज्जेज्जा जीविए मरणे तहा । | |
| ५. | मज्झत्थो निज्जरा-पेही समाहिमणुपालए; अन्तो वहिं विजोसज्ज अज्झत्थ सुद्धमेसए । | |
| ६. | ज किंखुवक्कप जाणे आउक्खेमस्समप्पणो, तस्सेव अन्तरद्वाए खिप्प सिक्खेज्ज पण्डिए । | 20 |
| ७. | गामे वा अट्टु वा रण्णे थण्डिलं पडिलेहिया अप्प-पाण तु विन्नाय तणाइ सन्थरे सुणी । | |
| ८. | अणाहारो तुयट्टेज्जा, पुट्टो तत्थ'हियासए, नाइवेल उवचरे माणुस्सेहीं वि पुट्टव । | 25 |
| ९. | ससप्पगा य जे पाणा जे य उड्डमहेचरा मुज्जन्ते मस-सोणीय न छणे न पमज्जए । | |
| १०. | पाणा देह विहिंसन्ति—ठाणाओ न विउब्भमे, आसवोहिं विचित्तोहिं तिप्पमाणो'हियासए । | |
| ११. | गन्थेहिं विचित्तोहिं आउ-कालस्स पारए; पग्गहीयतर चेयं दवियस्स वियाणओ : | 30 |
| १२. | अयं से अवरे धम्मे नायपुत्तेण साहिए : | |

- आय-वज्ज पडीयार विजेहेज्जा तिहा-तिहा ।
१३. हरिणसु न निवजेज्जा, थण्डिल मुणिया सए,
विशोसेज्ज अणाहारो पुट्ठो तत्थ'हियासए ।
१४. इन्दिएहिं गिलायन्तो समियमाहरे मुणी,
तहावि से अगरहे अचले जे समाहिए ।
१५. आपकमे पडिकमे सकुचए पसारए
काय-साहारणट्ठाए एत्थ वा वि अचेयेण ।
१६. परिकमे परिकिलन्ते अटु वा चिट्ठे अहा-यए,
ठाणेण परिकिलन्ते निसिएज्जा य अन्तसो;
१७. आसणो'णेलिस मरण इन्डियाणि समीरए ।
कोला'वास समासज्ज चितह पादुरेसए,
१८. जओ वज्ज समुप्पज्जे न तत्थ अवलम्बए,
तओ उक्कसे'अप्पाण, सव्वे फासे'हियासए ।
१९. अय चाययतरे सिया जो एव अणुपालए .
सव्वगाय-निरोधे वि टाणाओ न विउव्वभमे:
२०. अय से उत्तमे धम्मे पुव्वट्ठाणस्स पग्गहे ।
अचिर पडिलेहिता विहरे चिट्ठो माहणे,
२१. अचित्त तु समासज्ज ठावए तत्थ अप्पग,
वोसिरे सव्वसो काय : ' न मे देहे परीसहा ' ।
२२. जावज्जीव परीसहा उवसग्गा य सखाय
सवुडे देह-भेयाए इति पन्ने'हियासए ।
२३. भेउरेसु न रज्जेज्जा कामेसु बहुयरेसु वि,
इच्छा-लोभ न सेवेज्जा धुवं वण्ण सांपेहिया,
- २४, ' सासएहिं ' निमन्तेज्जा—: दिव्व माय न सद्देहे ।
त पडिवुज्ज माहणे सव्व नूम विहणिया ।
२५. सव्वट्ठेहिं असुच्छिण्ण आउ-कालस्स पारए;
तिद्वक्ख परमं नच्चा विमोहन्नयर हिय—ति वेमि ॥

उ व हा ण सु यं

९-१

१. अहा-सुय वइस्सामि जहा से समणे भगव उट्ठाय
सखाएँ तसि हेमन्ते अहुणा-पव्वाइए रीइत्था ।
२. 'नो चेवि'मेण वत्थेणं पीहिस्सामि तसि हेमन्ते—'
से पारएँ आवक्खाए, एय खु अणुधम्मिय तस्त ।
३. चत्तारि साहिए मासे बहवे पाण-जाइयागम्म
आभिरुज्झ काय विहरिंसु, आरुत्तियाण तत्थ हिंसिंसु ।
४. संवच्छर साहियं मास ज न रिक्का'सि वत्थग भगवं,
अचैलए तओ चाई त वोत्तज्ज वत्थमणगारे ।
५. अदु पोरिसिं तिरिय-भित्तिं चक्खुमासज्ज अन्तसो ज्ञाइ ;
अह चक्खु-भीय-सहिया ते " हन्ता हन्ता " बहवे कन्दिंसु ।
६. सयणेहिं वीइमिस्सोहिं इत्थिओ तत्थ से परिन्नाया ;
सागारियं न से सेवे, इति से सयं पवेसिया ज्ञाइ ।
७. जे के'इमे अगारत्था, मीसी-भाव पहाय से ज्ञाइ
पुट्ठो वि नाभिभासिंसु, गच्छइ नाइवत्तई अञ्जू ।
८. नो सुकरमेगेसिं: नाभिभासे अभिवायमीणे,
हय-पुव्वो तत्थ दण्डेहिं, लूसियपुव्वो अप्प-पुण्णेहिं ।
९. फरुसाइ दुत्तिइक्खाइ अइयच्चे मुणी परक्कममाणे
आघाय-नट्ट-गीयाइ दण्ड जुज्जाइ मुट्ठि जुज्जाइ
१०. गढिए मिहु-कहासु समयम्मि नाइ-सुए विसोएँ अइक्खू ;
एयाई सो उरालाइ गच्छइ नायपुत्ते असरणाए ।
११. आवि साहिए दुवे वासे सीओद अभोच्चा निक्खन्ते;
एगत्त-नाए पिहियच्चे से अभिन्नाय-दसणे सन्ते ।
१२. पुढाविं च आउ-काय च तेउ काय च वाउ-काय च
पणगाइ वीय-हरियाइ तस-काय च सव्वसो नच्चा
१३. ' एयाइ सन्ति ' पडिलेहे ' चित्तमन्ताइ ' से अभिन्नाय
परिवज्जियाण विहरित्था इति सखाएँ से महावीरे:
१४. ' अदु थावरा य तसत्ताए तसजीवा य थावरत्ताए,
अदु सव्वजोणिया सत्ता, कम्मणा कप्पिया पुट्ठो बाला ' ।

१५. भगव च एवमन्नेसी : ' सोवहिणु हु लुप्पई वाले ' ;
कम्म च सव्वसो नच्चा त पडियाइन्हे पावग भगव ।
१६. दुविह समेच्च मेहावी किरियमन्नाय'णेत्ति त्ताणी
आयाणसोयमइवाय-सोय जोग च सव्वसो नच्चा
१७. अइवत्तियमणाउट्टिं समयत्तेपि अन्नरणयाण :
जस्ति'त्तियओ परिन्नाया सव्वकम्मावहाओ अइक्खू ।
१८. अहा-ऊड न से सेवे, मव्वसो कम्मणा य अइक्खू
ज किञ्चि पावग, भगव त अकुञ्ज वियउ भुञ्जित्था ।
१९. नासेवई य परवत्थ, पर-पाण पि से न भुञ्जित्था,
परिवज्जियाण ओमाण गच्छइ सखडिं असरणाय ।
२०. मायत्ते अत्तण पाणस्त नाणुगिद्धे रसेयु अपडिन्ने;
अच्छि पि नो पमज्जिया, नो वि य ऋद्धयए सुणी गायं ।
२१. अप्प तिरिय पेहाण अप्प पिट्ठओ व पेहाण
अप्प बुद्धए पडिमाणी पन्थ-पेही चरे जयमाणे ।
२२. मिसिरसि अद्ध-पडिवत्ते त वोसज्ज वत्थमणगारे
पसारेत्तु वाहू परकमे नो अवलम्बियाण सन्धसि ।
२३. एत्त विही अणुक्कन्तो माहणेण मईमया
वहुसो अपडिन्नेण भगवया एव रीयन्ते—त्ति वेमि ॥

९-२

१. चरियात्तणाइ सेज्जाओ एगइयाओ जाओ बुइयाओ,
आइन्ख ताइ सयणात्तणाइ जाइं सेवि'थ से महा-वीरे ।
२. आवेत्तण-सभा पवासु पणिय-सालासु एगया वासो
अदु वा पलिय-ट्टाणेसु पलाल-पुज्जेसु एगया वासो ।
३. आगन्तारे आरामागारे नगरे वि एगया वासो,
सुसाणे सुन्न-गारे वा रुन्ख-मूले वि एगया वासो ।
४. एएहिं सुणी सयणेहिं समणे आसि प-तेलस वासे;
राइंदियं पि जयमाणे अप्पमत्ते समाहिए श्वाड;
५. निहं पि नो पगामाए सेवइ य भगवं उट्टाए;
जग्गावई य अप्पाण, ईसिं साइयासी अपडिन्ने ।
६. सम्भुज्जमाणे पुनरावि आसित्तु भगव उट्टाए
निक्खम्म एगया राओ वाहि चकमिया मुट्ठाग ।
७. सयणेहिं तस्सुवमग्गा भीमा आसी अणेग-रूवा य
सत्तप्पगा य जे पाणा अदु वा पक्खिणो उवचरन्ति ।
८. अदु कुचरा उवचरन्ति गाम-रक्खा य सत्ति-इत्था य,

- अद्दु गामिया उवसग्गा : इत्थी एग्इया पुरिसो वा ।
९. इह-लोइयाइ पर-लोइयाइ भीमाइं अणेगरूवाइ,
अवि सुब्बिभ-दुब्बिभ-गन्धाइ सद्दाइ अणेग-रूवाइं
१०. अहियासए सया समिए फासाइं विरूव-रूवाइं;
अरइं रइं च अभिभूय रीयइं माहणे अवहु-वाइं ।
११. सयणोहिं तत्थ पुच्छिसु एग-चरा वि एगया राओ,
अन्वाहिए कसाइत्था; पेहमाणे समाहिं अपडिन्ने ।
१२. “ अयमन्तरसि, को एत्थ ? ” “ अहमसि ” ति “ भिक्खु ” आहइ
अयमुत्तमे से धम्मे : तुसिणीएँ स कसाइए ज्ञाइ ।
१३. जंसि प्पेगेँ पवेवन्ति सिसिरे मारुए पवायन्ते
तंसि प्पेने अणगारा हिमवाए निवायमेसन्ति:
१४. ‘ संघाडीओ पविसिस्सामो, एहा य समादहमाणा
पिहिया वा सक्खामो; अद्दुक्ख हिमग-सफासा ! ’
१५. तांसि भगव अपडिन्ने अहे-वियडे अहियासए दविए,
निक्खम्म एगया राओ चाएइ भगव समियाए ।
१६. एस विही अणुक्कन्तो माहणेण मईमया
बहुसो अपडिन्नेण भगवया एवं रीयन्ते - ति वेमि ॥

९-३

१. तण-फास सीय-फासे य तेओ-फासे य दंस-मसए य
अहियासए सया समिए फासाइं विरूव-रूवाइं ।
२. अह दुच्चर-लाढ अचारी वज्ज-भूमि च सुब्ब-भूमि च,
पन्तं सेज्ज सेविसु आसणगाइं चैव पन्ताः ।
३. लादेहिं तस्सुवसग्गा बहवे: जाणवया लसिसु,
अह लुक्ख-देसिए भत्ते, कुक्कुरा तत्थ हिंसिसु निवइसु ।
४. अप्पे जणे निवारैइ लूसणए सुणए डसमाणे,
‘ छुच्छुक् ’ कारेन्ति आहन्तुं “ समण कुक्कुरा डसन्तु ” ति ।
५. एल्लिक्खए जणे भुज्जो बहवे वज्ज-भूमि परुसासी,
लड्ढिं गहाय नालीय समणा तत्थ एव विहरिसु;
६. एव पि तत्थ विहरन्ता पुट्ट-पुन्वा अहेसि सुणएहि,
सल्लञ्चमाणा सुणएहि—दुच्चरमाणि तत्थ लादेहिं ।
७. निहाय दण्ड पाणेहि त काय वोसज्जेमणगोर
अह गाम-क्कण्टए, भगव ते अहियासए अभितमेच्चा,
८. ‘ नाओ ’ सगाम-ससिे व पारए तत्थ से महावीरे ।

- एवं पि तत्थ लढेहि अलद्ध-पुव्वो वि एगया गामो;
 ९. उवसकमन्तमपडिन्न गामन्तिय पि अप्पत्त
 पडिनिक्खमिच्चु लूसिसु : “ एयाओ पर पलेहि ! ” ति ।
 १०. ह्य-पुव्वो तत्थ दण्डेण अदु वा सुट्टिणा अदु फलेण
 अदु लेलुणा क्वाल्लेण ; “ हन्ता हन्ता ” वहवे कन्दिस्सु । 5
 मसूणि छिन्न-पुव्व्वाइ, ओट्टभियाएँ एगया काय
 परिस्सहाइ छिच्चिसु अदु वा पसुणा उवकरिसु,
 १२. उच्चालइय निहणिसु अदु वा आसणाओँ खलइसु—
 वोसद्ध-काएँ पणयासी दुक्ख-सहे भगवं अपडिन्ने ।
 १३. सूरु सगामत्तासे व सवुडे तत्थ से महावीरे 10
 पडिसेवमाणोँ फरुसाइ अचले भगव रीइत्था ।
 १४. एस विही अणुक्कन्तो माहणेण मईमया
 बहुसो अपडिन्नेण भगववया एव रीयन्ते—त्ति वेमि ॥

९-४


१. ओमोयरिय चाएई अपुट्टे वि भगवं रोगेहिं;
 पुट्टो व से अपुट्टो वा नो से साइज्जइ तेइच्छं । 15
 २. ससोहणं च वमण च गायब्भगण सिणाण च
 सवाहणं न से कप्पे दन्त-पक्खालण परिज्जाए ।
 ३. विरए य गाम-धम्मोहिं रीयइ माहणे अवहु-वाई,
 सिस्तिरम्मि एगया भगव छायाएँ ज्ञाइ आसी य ।
 ४. आयावई य गिम्हाण अच्छइ उक्कुड्डए अभितावे,
 अदु जावइत्थ लूहेण ओयण-मन्थु-कुम्मासेण । 20
 ५. एयाणि तिण्णि पडिसेवे अड्ड मासे य जावए भगव,
 अपिइत्थ एगया भगव अद्ध-मासं अदु वा मास पि ।
 ६. अवि साहिए दुवे मासे छप्पि मासे अदु वा अपिवित्था,
 राओविरायं अपडिन्ने अन्न-गिलायमेगया भुज्जे । 25
 ७. छट्टेणमेगया भुज्जे अदु वा अट्टमेण दसमेण,
 दुवालसमेण एगया भुज्जे पेहमाणे समाहिं अपडिन्ने ।
 ८. नच्चाण से महावीरे नो वि य पावग सयमकासी
 अत्तेहिं वी न कारेत्था कीरन्त पि नाणुजाणित्था ।
 ९. गाम पविस्स नगर वा घासमेसे कड परट्टाए 30
 सुविसुद्धमेसिया भगव आयय जोगयाएँ सेवित्था ।
 १०. अदु वायसा दिगिञ्छन्ता, जे अत्ते रसेसिणो सत्ता
 घासेत्तणाएँ चिट्ठन्ते सयय निवइए य पेहाए,

११. अदु माहणं व समणं वा गाम-पिण्डोलगं व अह्हिं वा
सोवागो मूसियारिं वा कुक्कुर वा विविहं ठियं पुरओ,
१२. वित्ति-च्छेय वज्जन्तो तेस'प्पत्तियं परिहरन्तो
मन्दं परक्कमे भगव, अहिंसमाणो घानमेसित्था ।
5 १३. अवि सूहयं व सुक्कं वा सीय-पिण्ड पुराण कुम्मासं
अदु बोक्कसं पुलाग वा लद्धे पिण्डे अलद्धए दविए ।
१४. अवि झाइ से महावीरे आसत्थे अकुक्कुए झाण,
उद्धु अहे य तिरिय च लोएं झायइ समाहिमपडिन्ने ।
१५. अकासी विगय-गेही य सह-रूवेसु अमुच्छिण झाइ
10 छज्जमत्थो वि परक्कममाणे न पमाय सह पि कुण्वित्था ।
१६. सयमेव अभिसमागम्म आयय-जोगमाय-सोहीए
अभिनिव्वुडे अमाइल्ले आवकहं भगवं समियासी ।
१७. एस विही अणुक्कन्तो माहणेण मईमया ।
बहुसो अपडिन्नेणं भगवया एवं रीयन्ते—सि बेमि ॥

॥ समत्तो पढमो सुयक्खन्धो ॥

—:—

अकारादि-शब्दानुक्रमणिका



अ च

अद्दुष्प्र अतिदुःप्र
अदमाण अतिमान
अद्दचित्तिय अतिशक्तिक
अद्दवाइय अतिपात्रिक
अद्दवाय अतिपात
अद्दविज्ज अतिविद्य
अद्दविज्ज अतिविद्वान्
अद्दविण्णू अतिविज्ज
अद्दवेल अतिवेल
अद्दहि अतियि
अद्दकन्त् अकन्द
अद्दगणि अमि
अद्दगार (गृह)
अद्दग्ग अम
अद्दगुलि —
अद्दग्गा अर्चा
अद्दच्छायण आच्छादन
अद्दच्छि अक्षि
अद्दज्जिण अज्जिन
१ अद्दज्ज अय,
२ अद्दज्ज अयि
अद्दज्जव आर्जव
अद्दज्जविया आर्जवता
१ अद्दज्जत्थ अघ्यारम
२ अद्दज्जत्थ अघ्यस्त
अद्दज्जत्थिय अघ्यारिणिक
अद्दज्जत्थ अघ्यारम
अद्दट्ठ आति
१ अद्दट्ठ अर्थे
२ अद्दट्ठ अट्ठ
अद्दट्ठम अट्ठम
अद्दट्ठया अर्थता

१ अद्दट्ठिण्ण अर्थिन्,
२ अद्दट्ठिण अर्थिन्
अद्दट्ठिय अर्थिक
१ अद्दणु अणु,
२ अद्दणु अणु
अद्दणुगामं अनुयामम्
अद्दणुगामिय अनुयामिक
अद्दणुट्ठण्ण अणुस्वादिन्
अद्दणुट्ठण अणुप्रान्
अद्दणुदिग्गा अणुदिग्ग्
अद्दणुधम्मिय अनु धम्मिक
अद्दणुपरिस्सण्ण अणुपरिस्सिन्
अद्दणुग्घट्ठ अणुग्घट्ठ
अद्दणुवसु अणुवसु
अद्दणुवीइ अणुविधि
अद्दणुसंवेयण अनुसंवेदन
अद्दणुत्थ अणुत्थ
अद्दत्तण्ण आरमन्
अद्दत्त आरमत्थ
अद्दत्ता आरमता,—आरमत्राण
अन्थ अर्थे
अद्दयिण्ण अर्थिन्
अद्दु यद् उ
अद्दु वा यद् उ वा,—यदि वा,
यद्वा
१ अद्द अर्थे,
२ अद्द-अर्थे
अन्तराइय आन्तराधिक
अन्तसो अन्तस
अन्तिय अन्तिक
अन्तो अन्तर
अन्थत्त अन्थत्थ
अन्न अन्थ

अद्दत्थ अन्थ
अद्दय्य अन्थत्थ
अद्दद्दा अन्थत्थ
अद्दोसिय अन्थेदिक्
अद्दप्य धान्
अद्दप्य आरमक
अद्दप्यण आरमन्
अद्दभंगण अन्थद्दा,—अन्थजन
अद्दभिन्नाच अभिन्नाच
अद्दभिन्नाय अभिन्नाय
अद्दभिसंकिण्ण अभिसंकिण्ण
अद्दभिसंय अभिसंय
अद्दभरायद्द अमरायत्त (अमर इवा-
चरति)
अद्दभिल्ल आरम
अद्दयं (सर्वनाम) अय, अणेण,अ-
स्स, भास्स
अद्दहन्त् अर्हत्
अद्दरिह अर्ह
अद्दरिहइ अर्हति
अद्दल्लद्दा अल्लवक
अर्धे अर्धत्थ
अद्दवच्चइय अपचविक
अद्दवम हीन
अद्दवमारिय अपस्मारिक
अद्दवयट्ठि भवतट्ठि
अद्दवर अपर
अद्दवसकिण्ण भवत्किण्ण
अद्दवि आपे
अद्दस् (धातु) अस्ति, भस्ति, सन्ति,
सिया, असिया, आसि, सन्त, अणु-
सिया

असण	अशन	आणुधर्मिय	आनुधर्मिक	आहञ्च	(आहय)
अह् (धातु)	आहु, उयाहु, आहूय	आप् (धातु)	आयतर, आत्तर,	आहरण	—
१ अह	अथ		पत्त, अपत्त, पप्प	आहाकड	यथाकृत
२ अह	अधत्	आम	अपक	आहार	—
अहं (सर्व०)	अह, मे, मए, मम,	आय,-या	आत्मन्	आहारग	आहारक
मह, मे		आयग	आत्मक	इ (धातु)	एन्ति, उवेइ, एच्चा, भ-
अहा	यथा	आयंक	आतङ्क	वेइ, अइय, समेई,	समिय, समेच्चा,
अहिय	अधिक	आयत्त	आत्मत्व	अभिसमेच्चा	
अहुणा	अधुना	आययण	आयतन	इओ	इतस्
अहे	अवस्	आयरिय	आचार्य	इच्च०	इति (इच्चत्य=इत्यर्थ)
अहो	अधस्	आयवन्त्०	आत्मवन्त्	इच्छा	—
१ अहो	अहर्	आयाण	आदान	इण (एण)	इदमर्थक
२ अहो	(आश्चथं)	आयार	आचार	इति (इच्च०)	
आइ	आदि	आरम्भ	(पापजनक प्रवृत्ति)	इत्तरिय	} इत्वरक
आइय	आदिक	आराम	—	इत्तरिय	
आईय	आदिक,-आ अतीत	आरिय	आर्थ,-आचार्य	इत्तरिय	
१ आउ	आपस्	आलइय	आलयिक	इत्थिया	स्त्रिका
२ आउ	आयुस्	आलुम्प	—	इत्थी	स्त्री
आउट्टी	आकुट्टी	आलोभिण्०	आलोभिन्	इन्दिय	इन्द्रिय
आउथ	आयुष्क	आवकहा	यावत्कथा	इम (सर्वनाम)	इम, इमा, इमेण,
आउर	आतुर	आवट्ट	आवर्त	इमस्स,	इमान्मि, इमे, इमाओ
आउरिय	आतुरक	आवन्त्०	यावन्त्	इय	इति
आउसन्त्०	आयुष्मन्त्	आवसह	आवसथ	इयर	इतर
आएस	आवेश	आवह	—	इयार्णि	इदानिम्
आएसिण्०	आदेशिन्	आवास	—	इरिया	ईर्या
आकखिण्०	आकाशिन्	आवेशण	आवेशन (शून्यगृह)	इव, व	इवार्थक
आकेवलिय	आकेवलिक	आस् (धातु)	आसु, आसिष्ठ,	१ इप् (धातु)	एसे, एसन्ति, एसए,
आगइ	आगति	आसीण, उदासीण		एसिस्था, एसिथा,	अनेसन्ति, ऽसि
आगन्तार	प्रसङ्गा यात्वा	आस	आश (प्रातराशदि)	न्ति, पाडुरेसए,	पाउडुएसए
वा यत्र तिष्ठन्ति (व्याख्या)	आगल्	आसंसा	आशसा	२ इप् (धातु)	इच्छसि, इच्छिया-
आगमण	आगमन	आसण	आसन	निच्छिय	
आगमिस्स	आगमिष्य	आसणग	आसनक	इसि	ऋपि
आगर	आकर	आसम	आश्रम	इह,-(हं)	इहार्थक
आगास	आकाश	आसव	आश्रव	ईध् (धातु)	उवेहइ, उवेह, उवे-
आघवेत्तग	आख्यापयित्क	आस्ता	आशा	हाइ, उवेहमाण,	अणुवे०; अणुवे-
आणन्द	आनन्द	आसाय	आत्वाद	हाए, उवेहा,	समुप्पेहमाण, समुवे-
आणा	आज्ञा	आसु	आशु	हमाण, पेहमाण, ० मीण,	पेहाए,
आणुगामिय	आनुगामिक	आसेवणा	आसेवना	संपेहाए-संपेहाए,	संपेहिया
		आसेवणया	आसेवना	ईच्य (धातु)	रिय, उदीरिय, स-
				मारए	

शर्से ईषद् _____

उ उ

उक्कुहुय उक्कुहु

उग्घायण उद्घातन

उष्ठा उच्छार्थक

उष्वालइत्तरं } उष्वालथित्
उष्वालइय } उष्वालथिक

उष्वाचय उष्वाच

उजु-उज्जु ऋजु, अञ्जु

उज्जुकड, -डे ऋजुकन, ऋजुकारी

उट्टाहणं उट्ट्याथिन

उड्ड कर्ष

उण्ह ऋण

उत्तम —

उत्तर —

उत्तासइत्तरं उट्ट्याथित्

उत्तिग —

उद् उदकार्थक

उदय उदक

उदीण उदीचीन

उह्वइत्तरं } उद्वपापयित्
उह्वेत्तरं }

उहेस् उदेश

उभिन् उभिद्

उभय —

उम्मग्गा } उम्ममा

उम्मग्गा }

उम्मज्जा } उम्मज्जा

उम्मज्जा }

उयर उदार

उयरिणं उदरिन्

उयाहु उताहो

उर उरम्

उराल उदार

उयक्कम उपकम

उवगरण उपकरण

उवचइय उपचयिक

उवचय उपचय

उवरइ उपरति

उवराय उपराय

उ (ओ) घवाइय औपपादि (नि) ऋ

उववाय उपवान

उवस (स्स) गग उपसर्ग

उवसन्ति उपसन्ति

उवसम उपसम

उवहाण उपधान

उवहि उपथि

उवहिय उपथिक

उवाय उवाय

उवाहि उवाथि

उवेहा उपेष्ठा

उव्वेग उव्वेग

उसणिज्ज उष्णीय

उत्तिण उग

ऊर —

ऋ (धातु) अरुच्छइ

ए— (मर्धनाम) एहि

एक्क एक

एग (भणोग) एकै (अनेक)

एगइय एकतिक

एगओ एकतम्

एगत्त एकत्त

एगन्त एकान्त

एगयर एकतर

एगया एकदा

एगानिणं एकाकिन्

एगाणिय "

एज वायु

एण, इण (सर्वं) एन-एण, इणं

एण्य (थं) अत्र

एय (सर्वं) एतदर्थक—एय, ए-

याओ, एयस्स, एए, एयाइं, एयानि

एएहिं, एएहु

एयावन्त्-एतावन्

एलिक्खग ईदशक

एलिस (अगेलिं) ईदश (अनीदं)

एच, च एवार्थक

एवं एवमर्थक

एस एय

एसग एयक

एसणा एण्णा

एसिणं एपिन्

एह एथ

ओ वाक्खपूरणार्थक

ओग्गह भवग्रह

ओट्ट ओष्ठ

ओम भवम-हीन

ओमाण भवमान

ओय ओज

ओयण बोदन

ओयरिया औदर्य

ओसा भवदया

ओवाइय औपपादि (नि) ऋ

ओह ओप

ओहाण अवधान

क (सर्वना०) के, को, का, किं,

क, अकस्माद्, कस्मिं, केद्, कोद्,

किंनि, अकिंचण, कच्चण, कस्सइ,

कहिन्नि, केद् (वहु०), केय

कओ कन्त्

कक्खड, -०ट वक्कश

कंखा कांशा

कंविणं काविन्

कज्ज कार्य

कट्ट काष्ठ

कड, -०ट कृत्

कडि कटि

कडुय कडुक

कणट्ठा कण्टक

कण्डना काण्डक

कण्डूय (धातु) कण्डूयए

कण्ण कर्ण

कटथ कुत्र

कटयइ कुञ्चित्

कथय (धातु) कथिय, परिकथिइइ

कन्ध स्कन्ध	कासकस कापकप	करिस्सामो, करन्त्, -अकुर्वन्त्,
कप्प क्लर	काहीँय कयिक	कुव्वमाण, गड, अकड, दुकड, सुकड,
कध्वड कपेट	किं —	कय, किरिय, कायव्व, अकराणिज्ज,
कम्प् (धातु) अविकम्पमाण	किंड्वा किडा	अकरणीय, कट्ट, किच्चा, कज्जइ, किज्जइ,
कम्बल * —	किण्ह कृष्ण	कज्जन्ति, कीरन्त्, कीरमाण, कोरेइ
कम्म कम्मन्	कित्ति (अकि०) कीर्त्ति (अकी०)	कोरेन्ति, कारवे, कोरेत्या, कारोवेसु,
कय (विक्रय) क्रय (विक्रय)	किमण कृपण	काराविस्सं, काराविस्सु, कारावेस्स,
कयवर कचवर	किरिया क्रिया	पकरन्ति, पकरेन्ति, पकुव्वइ, पकु-
कयाइ कदाचिद्	किव (वि) ण कृपण	व्वमाण, पगड, सखय
कर, ० री —	किस क्श	२ क्त (धातु) उवकरिस्सु
करण —	किह कथा	कृश् (,,) कसेइ
करणया करणता	कीर्त्तय् (धातु) किट्ठइ, किट्ठे	कृप् (,,) उक्कसे, उक्कसिस्सामि,
कलह —	कुओ कुत्तस्	विउक्कसे, उक्कसिस्सामि, अवकस्सण
कलुण करुण	कुक्कुय कौकृत	कृप् (धातु) कप्पइ, पकप्पेइ, कप्पे,
कल्लाण कल्याण	कुक्कुर —	कप्पिया, पकप्पयन्ति, पकप्पेन्ति
कवाल कपाल	कुच् (धातु) अपलिउद्धमाण, स-	केयण केतन
कशाय् (धातु) कसाहत्या	कुचए, सकुन्धिय, सकुचमाण	कोट्ट कोष्ठ
कपायय् ,, कसाइय, सकसाइय	कुचर चोरो पारदारियाय (व्याख्या)	कोट्टिण्- } कुट्टिन
कसाइए	कुट्ट (धातु) आउट्टे, विउट्टन्ति	कोट्टिण्-
कसाइण्० कपायिन्	कुट्टिण्० कुट्टिन्	कोल (घुणा, उट्टेहिया वा, व्याख्या)
कसाय कपाय	कुणिय कुणिक	कोविय कोविद
कसायय कपायक	कुण्टत्त कुण्टत्व	कोह कोध
कहं कहा कयकया	कुण्डल —	क्रन्द (धातु) कन्दइ, कन्दिस्सु
कहा कया	कुन्त —	क्रम् (धातु) चकमित्ता, चकमिय,
काउ काय	कुन्तग कुन्तक	चक्कमिय, उवाइक्कन्त्, उवाइक्कम्म,
काक्ष् (धातु) कखेज्जा, अभिन्- येज्जा, अवकखइ, अवकरन्ति, अणवकरत्तमाण, ० कखे०	कुप् (धातु) कुप्पन्ति, कुप्पेज्जा	अभिक्रमे, अभिक्रममाण, अणभिक्रमे,
काणत्त काणत्त्व	कुम्भार —	अणभिक्रममाण, अवक्कमेज्जा, अव-
काणिय काणक	कुम्म कूर्म	क्कमित्ता, अक्कन्त्, अणुक्कन्त्, विउ-
काम —	कुम्मास कुल्माण	क्कम्म, निक्कन्त्, दुण्णिक्कन्त्, निक्कम्म,
कामिण्० कामिन्	कुल —	अभिनिक्कन्त्, पडिनिक्कमित्तु, पडि-
काय —	कुस कुश	क्कमे, पडिक्कममाण, परक्कमे, परक्क-
कायर कातर	कुसल कुशल	मेज्जा, परक्कमेज्जासि, परक्कमन्त्,
कार —	कुसील कुसील	परक्कमाण, दुप्परक्कन्त्, विप्परि-
कारण —	कूर कूर	क्कमन्दि, विप्परिक्कम्म, उवसकमन्त्,
कारिण्० कारिन्	१ क्त (धातु) करेमि, कोरेइ, कोरेन्ति, करए, कुज्जा, कुव्वह, अकरेसु,	उवसकमित्ता, उवसकमित्तु
काल —	अकरिस्सु, अकासी, अगास, कुव्वि-	क्की (धातु) किणे, किणावेद, कि-
	त्या, करिस्स, करिस्सामि, करिस्सइ,	णन्त्, कीय
		कृध् (,,) कुज्जे

कुण्ड (धातु)	अकुण्ड, कुण्ड	गण्डिण्० गण्डिन्	गुण्ड् गुल्क
कुम् (,,)	कुम्भिक्य, परिधि-	गन्ध ग्रन्थ	गुण्डग गुल्कक
कुन्		गन्ध —	गुरु —
कुन्ति (,,)	कुन्तिन्ति, परिधि-	गन्ध गर्भ	गुरुग गुरुक
कुन्ति		गम् (धातु) गच्छ, गच्छन्ति,	गुहा —
कुण् (,,)	कुण्	गच्छेज्जा, गच्छ, गच्छिष्ये, अश्चक्ष, गच्छन्ति, अणुगच्छमाण, अणु-	गृ (धातु) आचरन्ति, जागिता, जग्मावद्
कुण्		गच्छमाण, आगममाण, ० मीण-	गृध्र (धातु) गिञ्जे, गिद्ध, अणु-
कुण्य	कुण्य	आगय, आगमेता, आगम्य, सम-	गिद्ध, परिगिञ्जद्
कुण् (धातु)	कुण्	आगय, असम०, अभिसमन्नागय,	गेहि गृद्धि
कुण्य	कुण्य	अभिगमनागम्य, नियच्छन्ति, किंय-	गोमय —
कुण्	कुण्	गम-यथा पारगम, सीरगम	गोत्र
कुण्य	कुण्य	गमण गमन	गोयर गोचर
कुण्, कु, कु	कुण्यक	गरहा (अगरहा) गर्हा (अगर्हा)	ग्रथ् (धातु) गठिय
कुण्य	कुण्य	गहय गुरुक	ग्रभ्र ग्रह् ,, गहिय, गहय, अ-
कुण्	कुण्	गल —	भिभिगिञ्ज, अपरिगहमाण, ० मीण,
कुण्य	कुण्य	गत्स् (धातु) पगन्भद्	अपरिगहमाण, परिगिञ्ज, पगर्ही-
कुण्	कुण्	गवेष् ,, गवेसित्था	चतरा
कुण्य	कुण्य	गवेसग गवेयक	गला (धातु) गिलाएभि, गिला-
कुण्	कुण्	गह (अगह) ग्रह (अग्रह)	गामि, गिलामी, गिलाइ, गिला-
कुण्य-कुण्य	कुण्य	गाम प्राप्	एज्जा, गिलायन्त, गिलाण, अगि-
कुण्	कुण्	गामिण्० गामिन्	लाण, गिलाय, परिगिलायमाण
कुण्य	कुण्य	गामिय प्रामिक	घर गृह
कुण्	कुण्	गाय गात्र	घस् (धातु) परिघाषेजु, दिगि-
कुण्य	कुण्य	गार अगार	च्छन्त, दिगिच्छन्त, दिगिच्छन्ता,
कुण्य	कुण्य	गाह (धातु) अभिगाहद्	दिगिच्छेन्ता
कुण्य (धातु)	अकपाह, अकपाह,	गाहय (गाहिया) ग्राहक (ग्राहिका)	घाण घ्राण
	आपाह, आहस्तामो, आहस्ताम,	गाहायद् गृहपति	घातय (धातु) घायए, घायमाण,
	आहस्तामि, आहस्तामि, आहस्तामि,	गिद्धि गृद्धि	घायमीण
	आहस्तामि, आहस्तामि, अकपाहस्तामो,	गिम्द् ग्रीम्	घास प्रास
	आहस्तामण, अकपाय, अकपाय,	गिरि —	घृष् (धातु) परिघेत्त्र, परिधेयश्च
	अकपाय, अकपाय, अकपाहस्ताम,	गिलासिण्- प्रासिन्	घोर —
	अकपाहस्तामि, उदाहिय, पञ्च	गिलासिणी प्रासिणी	
	कपाहस्ताम, परिग्राहस्ते, अकपा-	गिह गृह	
	हिय, ग्राहिय, विन्नाय, -विन्नाय,	गीय गीत	
	विन्नाहिय, सविन्नाह, सजाए,	गीघ ग्रीय	
	एताय, परिगताय	गुण —	
कु	कु	गुप्ति गुप्ति	
कु	कु	गुष् (धातु) गुत्, अगुत्, दुगुच्छमाण	
			च, (घो, वा, अ) च आर्षक
			चउदय चतुर्थ
			चउपय चतुष्टय
			चउरंस चतुरस
			चक्षु चक्षु
			चत्तारि चत्तारि

चर्म चर्मन्	छट्ट पठ	जाण यात
चयण च्यवन	छृण क्षण	जाणवय जानपद
चय —	छृणण क्षणन	जाणु जातु
चर् (धातु) चेर, चरेज्जा, अचारी, अणुचिष्ण, उवचरन्ति, उवचरे, विय-रिषु, संचारिज्जा, अणुसंचरद्	छद् (धातु) पलिओच्छन्न, पलि-च्छन्न, पच्छन्न	जाम याम
चर —	छन्द छन्दस्	जाय जात
चरिया चर्या	छाया —	जाया यात्रा
चर् (धातु) चॉलेमाण, उच्चालिय	छिद् (धातु) छिज्जद्, छिन्देज्ज, छिन्दह, छिन्न, छिता, वोच्छिन्दे-ज्जा, अव्वोच्छिन्न, अच्छे, अच्छेज्ज	जावन्त्, जाव यावन्न्, यावन्नी-वप्, यावन्ती
चल (अचल) —	परिच्छिन्दय, पलि०	जि (धातु) विइत्ता, विएत्तु
चवण (चयण) च्यवन	छु छुद्-छुच्छुक्कारेन्ति)	जिण जिन
चाइण्-ल्यागिन्	छेत्तर्-छेत्	जिष्भा जिब्हा
चाय् (धातु) निकाम्, (निकार्य, निचार्य, निकाएऊण, नि-काएय्वा)	१ छेय छेक	जीव् (धातु) जीविस्सामो, जी-विउ, जीविउ-काम
चारिण्-चारिद्	२ छेय छेद	जीव —
१ चि (धातु) ससचियाण	ज यथा अण्डज पोतज	जीविण्-जीविन्
२ चि " अणुवाह (य) अणुविचिय	ज (सर्वनाम य) जे, (एक-बहु०) जो, ज, जा, जेण, जाए, ज, जस्त, जसि, जाइ, जाओ, जेहिं, जेसि, जेसु	जीविय जीवित
चिद्धा चेट्थ	जेइ यदि	जीहा जिब्हा
चित् (धातु) चैएमि चैएह	जओ यतः	जुइमन्त् शुतिमन्त्
चित्त (अचित्त) —	जंघ —	जुज्ज जुच्च
चित्तमन्त् चित्तमन्त्	जण जन	जुद्ध युद्ध
चित्तमन्तग " "	जणग जनक	जुप् (धातु) झोसेमाण, अझो-सयन्त
चिन्तय् (धातु) अणुविचिन्तिय	जणवय जनपद	जूर् (धातु) जूरद्, जूरह
चिर —	जत्थ यत्र	जृ " जरेहि, जुण्ण, परि-जुण्ण
चुद् (धातु) चुइय (चोइओ)	जन् जा (धातु) जायद्, जाय, जणयन्ति, अभिसजाय	जोग योग
चेइ चयइ (त्यञ्)	जन्तु —	जोगया योगता
चेयण (अचे०) चेतन (अचे०)	जम्म जन्म	जोगि योनि-
चेल (अचे०) वल्लार्थक	जरा —	जोगिय योनिक
चेलग, चेलिय चेलक	जराउ जरायु	जोव्वण यौवन
चेप् (धातु) विपरिचिद्धइ, परिचि-र्हिद्धु	जहा यथा	ज्ञा (धातु) जाणइ, जाणेज्जा, जाण, जाणे, जाणाहि, जाणह, जाणेह, अत्रेसी, अत्रेसिं, जाणन्त्, अजाणन्त्, अयाणन्त्, जाणित्ता, जाणि-त्त, नच्चा, नच्चाण, अणुजाणइ, अणुजाणए, अणुजाइ, अणुजा-गित्था, समणुजाणइ, स० जाणाइ, स० जाणेज्जा, स० जाणमाण,
चोर चौर	जाइ जाति	
च्यु (धातु) चुय	जाइय जातिक	
उ पद्	जागर —	

•मर्ण, अभिजाणः, •याणह, अ-	तण तृण	तिरिञ्चु } तिर्यक्
भिद्राय, समभिचाणिया, न०	तत्तो ततः	तिरिय }
जाणेजा, स० जाणाहि, स० जाण-	१ तत्थ तत्र	निविह त्रिविध
माण, अवयाणह, अवयाणन्त्, आ	२ तत्थ (अत०) तथ्य (अत०)	तिहा निधा
जाण, आयाण, थायाणह, आ-	तद्-	तीर -अतीरगम
णाए, आणवेजा, आणवेजजा,	तन्-	तु उ तु
अउजायेयव्व, आणावे०; परिजा-	तप्-	तुट्ट ध्र
णामि, परिजाणह, परिजाणन्त्,	तप् (धातु)	तुच्छ —
अप०, परित्राय, अप०, सुप०, सु०	वर्ध, अभितोवे, आयावयह, धात्रावे-	तुच्छमा तुच्छक
जाणियव्व, सु० प्राए, सु० प्राया,	त्ताए, पयावेजजा, पयावेत्ताए, परित-	तुम (सर्वनाम) त्वम्, तव, ते,
सुपप्रत्त, पन्नवेमो, पन्नवेह, पग-	प्यह, परितप्पमाण, परियाविज-	तुवम, तुञ्ज, भे
येन्ति, पाडिप्रत्त, अप०, विजणणह,	न्ति, •यावजजन्ति, •यावेन्ति,	तुला —
विजाणन्त्, धिया०, अत्रि०, वि-	•यावए, •याविय, •यावेयव्व	तुसिणाय नृणाक
प्राय, दुट्ठि०, वियाणित्ता	तम्- तद्	ट (धातु) तट्ट, तिण्ण, तारितए
ज्वल (धातु) उज्जलेत्तए, पज्जा-	तम तमम्	अवडण्ण, पदण्ण, आंविडण्ण
लेत्ताए, पज्जलेत्ता	तर (ग)—(० क)	तेहच्छा चिन्तिहा
झञ्ज्या (माया-लोभेच्छा; व्याप्या)	तर्क् (धातु) तर्कियाण,	तेउ, तेओ तेज्ज्
झायिण्-ध्यायिन्	तच तपम्	तो अतर
झाण ध्यान	तवस्सिण्- तपास्विन्	त्यज् (धातु) चेड्=चयद, चयान्ति,
झामिय जिम्हिक (भलस्यवाही)	तस्-तद्	चाए, चाएन्ति, चाएस्सामो, चयांहि,
झूस् (धातु) झोसेह झोसमाण,	तस प्रन	चइत्ता, चेथा (०ण), चाएन्ति,
•मर्ण, झोसिय, दुञ्जोसिय	तसत्त प्रसत्त	चाएह, परिथयान्ति, परिसेएजा,
ठाण स्यान	तह (तथ्य)	परिथज्ज, सचाएमि
डण्ड दण्ड	तहा तथा	प्रस् (धातु) नमन्ति, परिवि-
डाह दाह	तहागय तथागत	त्तमन्ति, पारोपित्तभेजा
णं नूनम्	ताण प्राण	त्वग्घर्तय (धातु) तुयहेजा
प्हारुणी ज्ञायुनी	तारिस् (अता०) ताहश (अता०)	थ स्व दया-भगारत्थ, भासणत्थ,
त (सर्वना०) तदर्थक त, तां, स-	तारिस्सय ताहशक	छाउमत्थ, भवत्थ, मज्जत्थ
मासगत-तद् यथा तज्जोसमाण,	तालु —	थण स्तन
तदिहोय, तेण (-ण), तम्हा, त-	ताव तावद्	थडिल,-०ल्लु स्पण्डिल
स्स, तसि, तम्मि, ते, ताह, तेह्,	ति इति	यावर स्वावर
तेसि, तेसु	तिइक्खा तितिक्खा	थावरत्त स्वावरत्त
तइय वृतीय	तिक् (धातु) तिप्पह, तिप्पमाण	थी श्री
तथो ततः	तिज् ,, तिइक्कए, तिइक्कमाण	शूल स्थूल
तंस थ्यश	तिण्णि त्राणि-तिहि	थोव स्तोक
तफका तर्का	तित्त तित्त	
तच्च तत्थ	तिय त्रिक	
	तिरिन्चु तिर्यक्	
		दंस् (धातु) डसन्तु, डसन्तु, द-
		सन्तु, डसमाण, डसमाण, दसमाण

वैत दश	दिश् (धातु) देसिय, समुद्दिस्स, देह —	दो दौ
वैसण दर्शन	पदेसिय	दोणमुह द्रोणमुख
वैसण्० दर्शान्	दिसा दिश्	दोस दोप
वग उदक	दि (धातु) क्षये-दांण, असदीण,	धम्म धर्म
वढ दढ	सदइ सदिज्जइ वा सदीणे	धम्मय धर्मक
वण्ड, उण्ड —	दाँव दीप	धम्मवन्त्- धर्मवन्त्
दन्त —	दाँह दाँघ	धम्मिण्- धर्मिन्
दं दन्त	दुक्ख दुःख	धा (धातु) हिय, अहिय; आढाए-
दम —	दुक्खिण्- दु खिन्	मि, आढायमाण,०माँण, आढाय-
दय (धातु) दयइ, दइय	दुगच्छणा, दुगु० जुगुप्सा	माणग, अणाढा०, समाहिय, सु-
दया —	दुग्गइ दुर्गति	समाहिय-, निह, निहज्ज, निहाय,
दरिसण दर्शन	दुच्चर दुश्चर	सुप्पणहिय, परिहिस्साभि, पीहि-
दविय द्रव्य	दुच्चरग दुश्चरक	स्साभि, पेहेसामि, पिहिय-, स-
दसम दशम	दुज्झोसग दुग्णपाल्य	घाएइ, सघए, अम्मिसघए, आढा-
दह (धातु) दहह, ढहह, डज्जइ,	दुत्तिइक्ख दुत्तितिक्ष	एमाण
द०, समादहमाण,०ढह०, विडज्ज-	दुपय द्विपद	धाई धात्री
माण	दुप्पड्डिबूहग,०बूहण दु'प्रति-	धारिण्० —
दा (धातु) दयाइ, देइ, दलइस्सामि,	वृहणीय	धारिय धारिक
दासामि, दाहामि, दत्त-, अदत्त-,	दुग्भि,०ग्भि दुरभि	धाव् (धातु) सधावइ
अइण्ण-, आइयन्ति, आइए, आइ-	दुरइक्कम दुरतिक्रम	धीर —
यावए, आइज्जमाण, अणाइयमाण,	दुरणुच्चर —	धुव, धुय धुव
-०माँण, आईट्ट-आइहिण्- (आ-	दुरभि —	धू (धातु) धुणाइ, धुणे, धूय-,
दत्तार्थ) , अणाइय, 'आयाणिज्ज,	दुरहियासग दुरधिवासगीय	विहूणिया, विधूय-, सविहूणिय
आयाणीय, आइत्त, आयाए, आय,	दुल्लभ दुर्लभ	धूर- दुहित्
उवाइयमाण, पाएजा, समाइयन्ति,	दुवालसम द्वादश	धृ (धातु) धारेज्जा, धारेत्तए, वि-
समायाए, समाय	दुविह द्विविध	धारए
दाढ दष्ट	दुव्वसु दुव्वसु(-सुनि)	धौ (,,) धोवेन्ना, धोय
दायाद —	दुसंघोह दु सम्बोध	ध्या (,,) झाइ, झायइ, निज्जा-
दारुण —	दुहभो द्विधातस्	इत्ता
दास —	दूतय् (धातु) दूइज्जा, दइज्जेज्जा,	१ न इ
दासी —	दइज्जमाण, (हेमन्तगिम्हासु दोसु,	२ न —
दाह ढाह —	रिज्जइ दइज्जइ, दोहि वा पाएहि	नध् (धातु) आणक्वेस्सामि, अण०,
दाहिण दक्षिण	रिज्जइ दइज्जइ-व्याख्या)	आणि०
दिद्धिमन्त्- दृष्टिमन्त्	दूर —	नगर —
दिट्ठीय दृष्टिक	दृग् (धातु) अद (द्) वख्,	नगिण नम
दिय द्विज	दिट्ठ, दुदिट्ठ, दह, दट्टण, दिस्सइ,	नट्ट नृत्य
दिया दिवा	दीसई, अदिससमाण, उवदसेज्जा	नड नट
दिश् (धातु) परिदेवमाण	देव —	
दिव्व दिव्य	देसिय देसिक	

नन्दि —	निज्जोसइत्तर- निपायित्	पट्टाण (अप्प०) प्रतिष्ठान,
नम् (धातु) नममाण, अनममाण, निडाल ललाट	निनिय (अने०) निरथ (अनि०)	(अप्र०)
नय, अनवयमाण, उदयमाण, परि-	निद्दा निद्रा	पंसु पशु
णमेज्जा, विपरिणामत्ति, विपरि-	निहस तदंश	पक्कस दृश्य वक्कस
णामेत्ति, पणय	नियग —	पन्नालण प्रक्षालन
नमस्य (धातु) नमसिय	नियट्ट (अनि०) निवर्न (अनि०)	पक्कण- पक्कन्
नर —	नियम —	पगन्थ प्रग्रन्थ
गरग नरक	निथान न्याय	पगप्प प्रकल्प (सामाचारी =
नश् (धातु) नस्मइ, नासइ, वि-	नियण निदान	शाचार)
णस्मइ,	निरय —	पगाम प्रकाम
नह नख	निरामगन्ध —	पमार प्रमार
१ नाइ ज्ञानि (ज्ञातिपुत्र=नहा-	निरान्दइतया निरान्धनया	पगह प्रग्रह
चार)	निरुवट्टाण निरुन्वान	पच् (धातु) पवह, परिपचमाण
२ नाइ ज्ञानि (ज्ञाति-बल)	निरोह निगध	पान्द०
नाग —	निलाट ललाट	पञ्चात्तम प्र यत्तम
नाण ज्ञान	निपाइण- निपातिन्	पञ्चात्तिय- प्रशासन्
नाणवन्- ज्ञानवन्	निवाय निवात	पच्छा पथात्
नाणिण- ज्ञानिन्	निवेसण निवेदान	पज्जय पयय
नाभि —	निव्याण (ने०) निर्वाण	पज्जयमिय दृश्य सन् (धातु)
नाम नामन्	निव्वेय निव्वेद	पञ्चग पञ्चक (शब्द, रूप, रस,
नामय नामक	निस्सार नि मार	गन्ध, रस)
१ नाय ज्ञात्	निस्सेयस नि श्रेयस	पट्टण पटन
२ नाय ज्ञात	निस्सेस (नो०) नि शेष	पट्टिङ्गल प्रतिहून्
नायपुत्त ज्ञातपुत्र	निस्सेमिय नि शेषिक	पट्टि (पाडियक) प्रत्येक
नालीय नालिक	निह (अनि०) निघ (इन् धातु)	पट्टिगह प्रतिग्रह
नास नाश	नी (धातु) अवर्णीय, सुवर्णीय,	पट्टिगय प्री घात
निकरण (नो निकरणाए ति, नो	परिणिज्जमाग, विणइत्तु, विणएत्ता	पट्टिच्छायण प्रातच्छान
निश्चय कर्तुं समर्थः, -व्याट्ठा)	नीया नीचा	पट्टिन्न (अप०) प्रतिज (अप्र०)
निकरणया निकरणा	नील —	पडियक दृश्य पडिइ
१ निकाय —	नीसंक्क नि शक्क	पडिलेहा प्रातिलेहा (लिप धातु)
२ निकाय दृश्य चाय (धातु)	नीसेस दृश्य निस्सेम	पडिदूणया प्रतिदूणता
निकेत (अनि०) —	नुद (धातु) पणुत्त, विष्णोत्तए	पडीण प्रतीचान
निकम्म निष्कर्म	विपु०	पडीयार प्रतीकार
निगम —	नूम कर्म, माया (अभिन्म अभि-	पडुच्च दृश्य वन् (धतु)
निगगन्थ निर्ग्रन्थ	मुख्येन कर्म माया वा)	पणग पनक
निच्चय —	नेत्त, नेय नेत्र	पणिय पण्य
निच्चग (अनि०) नित्यक (अनि०)	नेव्वाण निर्वाण	पडिय पण्डित
निज्जरा निर्जरा	नो न	पत् (धातु) अइवाएज्जा, अणइ-
निज्जाइण- निष्सायिन्		बाएमाण, आवाडिय, सणइय, निव

इसु, निरइय, पडिवयमाण, सप- यन्ति	परिघ्ना परिज्ञा परिघ्नाण परिज्ञान	पाईण प्राचीन पाउ प्रादुस्
पतेलस (पतेरस) प्रत्रयोदश— पगय पत्थिय वा तेरसम वरिस जेसि वरिसाण-प्रकर्पेण त्रयोदशम वर्षम् व्याख्या)	परिपाग (पलि०) परिपाक परिमंडल — परिमाण — परिमोक्ख दृष्टव्य पलिमोक्ख परियट्ठण परिवर्तन परियंदण परिवन्दन परियाय पर्याय (श्रामण्यफाल) परियाव परित प परिवन्दण (परिय०) परिवन्दन परिस दृष्टव्य फरिस परिस्त्व परिस्त्व परिस्सह परीपह परीसह „	पाडियक्क दृष्टव्य पडिक्क १ पाण पान २ पाण प्राग पाणिण्- प्राग्नि पामिच्च प्राभित्य (पामिच्चति अप- रस्मादुच्छिनमुद्यत्कम्, व्याख्या) १ पाय पात्र २ पाय पाद पायर्- प्रातर (यथा प्रातराश) पार — (यथा पारग, पारगामिन्, पारगम) पारुसिया पारुपता पालय (धातु) पालेमाण, अणु- पालए, ०पालिय, पालिज्जा, ०पालेज्जासि
पत्त पत्र पत्तिय प्रतीत पत्तेय प्रत्येक पद् (धातु) आवज्जन्ति, आवा यए, परियावज्जन्ति, समावन, अज्जोववन्न, पडुपन्न, समुप्पज्जेन्ति, समुपज्जे, निवज्जइ, निवज्जेज्जा, पडिवन्न, विप्पडिवन्न, सपत्त	परिस्त्व परिस्त्व परिस्सह परीपह परीसह „ पलाल — (पलालपुञ्ज) पलास पलाश पलिपाग दृष्टव्य परिपाग पलिवाहर (०हिर) प्रतीप आहरे चरण सक्कोचए देसी भासाए- व्याख्या	पाव पाप पावग पापक पावाइय प्रावादिक पावाउय प्रावादुक १ पात्स पार्श्व २ पात्स पाश पात्सग पश्यक पात्सणिय प्राशिक पात्सिम दर्शनीय पात्सिमन्त्- (पत्सतीति पत्सिम् व्याख्या)
पडिसो प्रदिशस् पत्त प्रान्त पन्थ पन्थन् (पथिन्) पन्न प्राज्ञ पन्ना प्रज्ञा पन्नाण प्रज्ञान पन्नाणमन्त्- प्रज्ञानवन्त् पभंगुर प्रभङ्गुर पभिइ प्रभृति पमाइण्- प्रमादिन् पमाय प्रमाद पमुह प्रमुत्त पमोक्ख प्रमोक्ष १ पय पद २ पय प्रज पयणु प्रतत्त पयणुग प्रतत्तुक पया प्रजा पर — (परेण पर) परम — परिगह (अप०) परिग्रह (अप०) परिगहावन्त् परिग्रहवन्त् परिणिव्वाण (अप०) परिनिर्वाण (अप०)	पलिमोक्ख (परि०) परिमोक्ष पलिय कर्म (पलियट्ठण, पलिय- पगन्य-इत्यादि) पवंच प्रपञ्च पवा प्रपा पवाय प्रवाद पशु (धातु) पासह, पासे, पस्स, पास, पासह, पासन्त्- , अपासन्त्- , पस्स- माण, पासमाण, पासिय, समणुप- स्सह, स० पत्सह, स० पासह पसु (अप०) पशु (अप०) पसुग (अप०) पशुक (अप०) पह पथ पहु प्रभु पहेण (प्रहेणक) पा (धातु) अपिइत्थ, अपिवित्था, पाउ, पायए, अपिवित्ता	पाव पाप पावग पापक पावाइय प्रावादिक पावाउय प्रावादुक १ पात्स पार्श्व २ पात्स पाश पात्सग पश्यक पात्सणिय प्राशिक पात्सिम दर्शनीय पात्सिमन्त्- (पत्सतीति पत्सिम् व्याख्या) पिच्छ, पिच्छ पिच्छ पिट् (धातु) पिट् पिट्टु घृष्ट पिट्ठि घृष्टि पिण्ड — पिण्डोलग पिण्डोलक पित्त — पिय (अपि०) त्रिय (अत्रि०) पियर्- पित्त पीड् (धातु) पिड्, आवालिप,

पनीलए, निपीलए	परुप	अनुज्जन्ति, ओयुज्जमाण, पनुद,
पीठ पीठ	फरुसया-०सिया परुपना	पडिबुद, सुपडिबुद, पडिनुज्ज,
पुच्छ —	१ फल —	सनुज्जमाणा, अभिसबुद
पुच्छण प्रोच्छन	० फल फलक	- बुस्तिमन्त बुदी सजमो-व्याहया
पुञ्ज —	फलग ,,	वेीह वेधि
पुढवी प्रथिवी	फलत्त फलत्व	वू (धातु) वेभि, बुइत्त, बुइय,
पुढो पृथक्	फारसिया पारुपना	बूया
पुण पुनर्	फास स्वर्ग	—
पुणर् ,,	फुसिय सष्ट	भइणी भगिनी
पुणो ,,	—	भगवन्त् —
पुण्ण पुण्य	वज्जओ वाह्यन्त्	भज् (धातु) विभयन्ति, विमए,
पुत्त पुन	वन्च् (धातु) वद्ध	विमत
पुरओ पुरत्स्	वन्ध —	भज्जा भार्या
पुरक्कार पुरस्कार	वन्धण वन्धन	भंजन मजक (भू ति भूनी,
पुरत्थिम पुरस्तिम	वंभ व्रतन्	तीए जाया भजगा, भजगा वृत्ता)
पुरा —	वंभवन्त् व्रत्तवन्त्	भण् (धातु) पडिमाणी
पुराण —	वल —	भत्त भक्त
पुरिस पुरुष	वलि —	भमुहा धुक्का
पुरे पुरस्	वहिं वहिस्	भय —
पुलाग पुलाक	वहिया वाह्याद	भव —
पुक्क पूर्व	वहिरत्त वधिरत्त	भाग —
पुक्कं पूर्व	वहु —	भायर भ्रातृ
पुत्थि ,,	वहुग बहुक	भाव —
पुप् (धातु) पोसन्ति, पोसेन्ति,	वहुयर बहुतर	भाप् (धातु) भासामो, भासह, भा-
पोसेजा, पोसिय	वहुल —	सन्ति, मामिय, अभिभासे, अभि-
पूर प्रति	वहुसो बहुसत्	मासिधु
पूयणा पूजन	वाध् (धातु) वज्जमाण, उच्चा-	मि भिद्
पूय् (धातु) पुच्छिठसु, पुच्छि-	इन्ति, उच्चाहिज्जमाण	भिउर, -भे० भिदुर
स्सामो, पुड, अपुह, पडिपुच्छमाण	वाल —	भिन्वायरिया भिक्षाचर्या
पृ (धातु) पुण्ण, पूरइत्तए, पूरेइत्तए,	वालया, -लिया वालना	भिन्नु भिद्ध
पडिपुण्ण, सपुण्ण	वाहा वाह्	भिन्नुणी भिक्षुणी
पेच्च प्रेय	वाहिं वाह्यम्	भित्ति —
पेज्ज प्रेयस्	वाहिर, -०हर वाहिर	भिद् (धातु) भिज्जह, अग्गे
पेसल पेसल	वाहिरग वाह्य	भी —
पेहा प्रेसा (ईक्ष वातु)	वाह् —	भीम —
पेहिण्- प्रेक्षिन्	विईय, वी० द्वितीय	भीय भीत
पोरिसी पौरुपी	१ वीय ,,	भुज् (धातु) भुजे, भुजह, भुजित्या,
—	२ वीय वीज	भुजत, भुजिय, अमोधा, भोत्तए
फारिस स्वर्ग	धुप् (धातु) अनुज्जमाण, बुद्ध	भुज्जो भूयस्

भू (धातु) भवइ (होइ), भव- न्ति, भवे, भविस्तामि, भविस्ता- मो, होइ (भवइ), होन्ति, होउ. अहेसि, भूय, अणभिभूय, अभि- भूय, पभूय, सभवन्त, अस०, स- भूय, अभिसभूय	भद् (धातु) मज्जेजा, पमज्जेजा, पमत्त, अप्पमत्त मद्दविया मार्दवता मन् (धातु) मन्नासि, मन्नइ, मन्नमाण, मय, दुम्मय, मणुया, मत्ता, मन्ता, सम्मय	मीसी भिखी मुच् (धातु) सुच्चइ, सुक्क, मुत्त, उम्मुच्च, सुध, पमुच्चसि, पमुच्चइ, पमोवराधि, विप्पमुक्क, पडिभोयए, विमुक्क, विमुत्त
भूमि — भूय भूत भेउर, भि० भिदुर भेत्तर भेत्तु भेय भेद भेरय भेरव भो भोत् भोइण् भोजिन् भोग — भोम भोम भोयण भोजन भंश् (धातु) भट् भ्रम —	मंत्रय् (धातु) निमन्तेज्जा मन्थु — मन्द — ममाइय ममायित्त ममाय् (धातु) ममायमाण, अममा- यमाण, अममायमीण ममाग (मामग) ममक मरण — मसग मशक महन्त् — महु मधु महुर मधुर मा —	मुट्टि (मुंठि) मुट्टि मुणि मुनि मुण्ड — मुत्ति मुक्ति मुत्तिण्- मूदिन् मुत्तिय मुक्तिक मुन् (धातु) मुय, मुणिया, सम्मुय मुइ ,, मुज्जइ, मूढ, सम्मूढ मुह मुख मुहुत्त मुहूर्त मुहुत्ताग मुहूर्तक मुइण्- मुविन् मूय मूक (मूय, मूइ) मूयत्त मूकत्त मूर्ख (धातु) मुच्छइ, मुच्छमाण- अमुच्छिय
भइ मति मईमन्त् मतिमन्त् मउय मृदुक मंकड मर्कटक मंस मांस मंसु इमधु मक्कडग मर्कटक मग्ग मारी मखिय मर्ले मच्छु मृच्छु मइह मध्य मइश्मि मध्यम मइय्या मृत्तिका मडंय — मण मनस् मणत्त मनस् मणि — मणुत्त (०स्स) मणुत्त (०ष्य) मत्ता मात्रा मय् (धातु) पमत्तइ, पमन्तइ	माइण्- माथिन् माइल्ल (अमा०) ,, (अमा०) माण मान माणण मानन (यथा वन्दन, मानन, पूजन) माणव मानव माणुस्स माणुष्य मामग मामक (मदीय) मायइ- मात्त १ माया मात्रा २ माया माता ३ माया — मार — मारुय मारुत्त मास — माहण (धंभण, चंइण) माहण भिज्जा मज्जा मित्त मित्र मिहुं मिथुत्त मिह मिथत्त	मूल — मूसियारी मूसिकारी (मार्जारी) मृ (धातु) सुयथ (मृतार्चा; मृता विनष्टा अर्चा (तेजस्) कपायरुपा येपा ते मृतार्चा.—व्याख्या) सपमारए मृत् ,, सपालिमज्जमाण; पमज्जए, पम- ज्जिजा, पमज्जिया, पमज्जिन मृत् (धातु) आसुवन्त; विप्पराभवइ० मुसइ,० मसह,० मुसइ; मुसन्ती मेहाविन् मेहाविन् मेहणिय मेहनिक मेहिण्- मेहिन् मोन्त्त मोत्त मोण मौन मोत्तिय मौक्तिक मोयण मोचन मोए —

मला (धातु) मिलाद्	राय रात्र	पडिलोहिता, पडिलेहिय, सुपडिले-
१ य च	रायसिण्—राजासिन्	हिया
२ य ज (यथा अण्डय, उड्मिय, जराडय, पोयय, रसय, ससेयय इत्यादि)	रायण्—राजन् रायहाणी राजधानी न् (धातु) रिज्जह, रीयह, रीयए, ली ,, दृष्टव्य व्ली ?	लिप् ,, लिण्, ओलिण्, उवल्लिण्, लिपेज्जा, लिपेज्जा
यत् (धातु) जयाहि, जयमाण	रीयन्ते, रीयन्त्—, रीइत्या, रीयमाण	लुक्त् रश्
यम् ,, जय (यतेत्), आयय, आयतर, नियच्छन्ति, सजमह, सजय, असजय०	रिच् (धातु) रिक्क, अइरिक्क, रिक्कासि (त्यन्तवान् !)	लुञ्च् (धातु) लुचिष्ठ, लाचिय, चल्चमाण
१ या च	रीया ईथो	लुप् ,, लुप्पह, आलुपह, विलुपह
२ या (धातु) जन्ति, दुज्जाय, जावए, जावइत्य, निज्जाई, नियाह	रन्त्य रश्	विद्धपन्ति
याच् ,, जाएज्जा, जाइस्वामि, जाइत्ता	रुद् (धातु) रयन्ति, रोयन्ति रुध् ,, निरुद्ध रुश् ,, आरुषियाण रुह् ,, अभिरुज्ज, आरुज्ज,	लुंप्पत्त्त् } लुम्पयिद्वं लुपिच्त्त् } लुच् (धातु) लुचिष्ठ, (पिट्टेन्ति, जिहिष्ठ) लुचिय
युज् ,, अभिजुजियाण, ०जुजिया, विष्पउजन्ति	समारुहन्ति	लुसग लुक्क
युश् ,, जुज्जाहि	रुह (रुह वीजजन्मनि)	लुसगण लुपणक
रइ (अर०) रति (अर०)	रुप्य् ,, परुवेमो, परुवेद, परुवेनिन्, रुव रुव	लुसिण्—लुपिन्
रक्ख रक्ष	रुविण् (अरु०) रुपिन् (अरु०)	लुह (लुन्व) रश्
रक्ष (धातु) सारक्खमाण, ०मीण	रोग —	लेहु, लेलु लेट्टु
रज्ज् ,, रज्जह, रएजा, रत्त, आरत्त, विरज्जए, विरत्त	लज्ज (धातु) लज्जामो, लज्जमाण	लेस्सा लेय्या
रण्ण अरण्य	लहि यष्टि	लोइय लोकिक्क
रभ् (धातु) आरभे, आरभमाण, ०मीण, अणारद्ध, समार (र) भइ ०रमन्ति, ०र (रं) भेज्जासि, ०ज्जा, र (र) भन्त, र (र) भमाण, असमारठ्ठ, ०रभ, समारभायेह, ०वेज्जा	लद्धि लद्धि	लोग लोक
रम् ,, रमह, रमन्ति, रय, अरय उवरय, अणुवरय, विरमेज्जा, विरय, अवरिय	लप् (धातु) लालप्पमाण, लभ् ,, लुभइ, लभन्ति, लद्ध, अलद्ध, ०द्धग, लद्धु, लभिय, उवल्लभ, पइल्लभ, पडिल्लभिय	लोच् (धातु) आलोएइ, आलोएज्ज
रय रज्ज्	लम्भ् (धातु) अवलजए, अवलजियाण	लोभ —
रस —	लवण —	लोच लोप
रसण रसन	लाघव —	लोहिय लोहित
राइ रात्रि	लाघविया लाघरता	च इव, एव, वा
राइन्द्रिय रात्रिदिव	लाढ राडा	वई वाच्
राम —	लाला —	वओ वचस्
	लिख् (धातु) पडिलेहन्ति, पडिलेहे, पडिलेहाए, सुपडिलेहिय, पडिलेहाए, घट्ट घट्ट	वन्कस्, प० चिरन्तनधान्योदतम्, पुरातनसम्भुपिण्डम्, वहुदिवसं सभृतगोरसगोधूममण्डकम्—व्याएया
		वंक वक्क
		घच् (धातु) घुत्त, घत्तए, वाइय, पवुच्चइ
		वच्च व्रस, वाच्य
		वज्ज वज्ज (—भूमि)

घट्टमग वट्टमक	२ वा (धातु) पवायन्त	वित्त —
घट्टमग वट्टमन्-मार्ग	३ वा (धातु) उदायन्ति, उद्वपए,	वित्ति शक्ति
घट्टभक्त घट्टभक्त	उद्वेयव्व	
घट्टुमग, ०ट्टु, ० वट्टमक	चाइण् वादिन्	१ विट् (धातु) विहस्ता, विहस्ताणं,
घणस्सइ वनस्पति	चाउ वायु	वेएइ, वेएउजा, वेयण, पवेएन्ति,
घण्ण वण	चागरण व्याकरण	पवेयन्ति, पवेयए, पवेएस्तामि,
घत्थ वल्ल	चाम —	पवेयइस्तामि, पवेइय, पडिबेयमाण;
घत्थग वल्लक	१ वाय वात	विप्पडिबेएइ, पडिसवेयइ, प० वेदइ,
घत्थु वास्तु	२ वाय वाद	प० वेएइ प० वेय (य) न्ति
घट् (धातु) वयन्ति, वयासी, वह-	वायस —	२ विट् (धातु) विउजइ, विउजए,
स्सामि, वयन्त, वयमाण, अनवय-	वाया (वाच्)	निव्विउजइ, नि व्विउज, निव्विद,
माण, वहत्ता, अणुवयमाण, ०मीण,	वाला (चमरी)	निव्विण्ण
परिवयन्ति, ०वएउजा, पवयमाण,	१ वास वर्ष	विदिस्सा विदिश्
०मीण	२ वास —	चिद्वाय् (धातु) विहायमाण,
घभ् ,, पहन्ति, वहेन्ति; अमि-	१ वासग वर्षक,	(विद्वांसो वयमित्येवमात्मान मन्य-
निव्वहेउजा, निव्वइइ	२ वासग वाशक	माना: — व्यात्या)
घम् ,, वन्ता	१ वि अपि	विज्ञाण विज्ञान
घमण घमन	२ वि विद	विन्नयर्-विशार्
१ घय वयस्	चिइगिच्छा, ० गिच्छा विचिकित्सा	विन्तु विज्ञ
२ घय म्रत	चिइमिस्स व्यतिमिश्	विप् (धातु) परिवेपमाण, पवेयन्ति
१ घयण घदन	चिउ विदु	विपास्सिण्-(विदार्शन्)
२ घयण वचन	चिओवाय व्यवपाद, व्यापात; व्य-	विप्परिणाम विपरिणाम-
घयस वचस्	तिपात	विप्परियास विपर्यास
घवहार व्यवहार	चिफय विक्रय	विप्पिय विप्रिय
वस् (धातु) वसे, वसइ, वसित्ता,	चिग्गह विग्रह	विमोक्षण विमोक्षण
अहियासेइ, अहियासए, अहिसे-	चिच् (धातु) विगिचइ, विगिच-	विमोह विमोह
जासि, अहियासमाण, अणहि-	माण, विवित्त, विगिचित्ता	१ वियड विफट
यासेमाण, अहियासिय, अहिया-	विचित्त विचित्र	० वियड विहृत
सेत्तए, अणुवासेउजासि, आवसे,	विजय —	वियन्त-कारग व्यन्तिकारक
आवसन्त, परिवुसिय, सवसइ.	विजा (या) णग विजानक	वियाघाय व्याघात
वस वश	विज्जंत् विद्वन्	विरइ विरति
वसा —	विज्जा विद्या	विराग —
वसु (वसु द्रव्यम्)	विणइण्-विनयिन्	विरूच विरूप
वसुमन्त् —	विणय विनय	विलुंपायिचर् } विलुम्पयित्
वह् (धातु) वज्जमाण; परिव-	विणा विना	विलुपित्तर् }
हितए	वितण्ड —	विवाय विवाद
वह वध	वितइ वितर्द	विवेग विवेक
१ वा च वा (विकल्पार्थक)	वितह वितय	विण् (धातु) पाविट्टयर (ग),
		निविट्, विनिविट्, पविसए, पविस्-

स्नानो, पविस्स, पवेधिया, अणुपविसिन्ता	घ वैर	संवच्छर सवत्सर
विसंहण विश्रमभण	वेचय वेपक	संसप्पग ससर्पक
विसय विपय	व्यथ् (धातु) पच्चहिय	संसय संशय
विस्साण विपाण	व्यध् ,, सविद्ध, षहिय	ससार —
विस्लोण विसाोक	वज् ,, परिव्वयन्ति, परिव्वए;	संसैय सस्सेद
विसोत्तिया विल्लोत्तिका	परिव्वएजासि, पव्वड्य	संसोहण ससोधन
विस्सभणया विश्रमभणता	वली ,, अलीण, अलीण	संहारण —
विस्सेणी विश्रयणी	शंस् (धातु) पससिय	सन्निक सभित्त
विह विल	शक् ,, सन्त्तामो, सक्क, सक्का	संक्कप सक्कल
विहार —	शत् ,, आसाएजा, (सक्कन-आ-	संक्रमण सक्रमण
विद्धि विधि	धातयेत्) अणासायमाण, ०मीण	संखटि सक्कति
विहारिण- विहारिन्	१ शम् ,, सन्त, समिय, समेमाण	संग —
विर्त्तिता —	२ शम् ,, सुनिसन्त (स० सुनि-	संगंथ सप्रन्य
विर्त्तिसग विर्त्तिसक	थान्त) निसम्म, निसामिया,	संगाम सप्राम
वीहमिस्स व्यतिमिश्	निसामेत्ता	संघाडी सघाटी
वीर —	शिक्ष् ,, सिक्केज्जा, सुसिक्केज्जा.	संघाय सघात
वीराय् (धातु) वीरायमाण (अ-	सुसिक्के	सच्च सत्त
वीरा वीरा-सविता)	शिश् ,, विप्पसिद्ध, परिसिद्ध, सु-	सज् (धातु) सज्जेज्जा, सत्त
वीरिय वीर्यं	विसिद्ध	सज्जोग संयोग
वीहि वीधि	शी ,, सए	सद्धिण- श्रद्धिन्
वुक्कम व्युक्कम	शुच् ,, सोयह, सोएज्जा, सोयए,	सढ शढ
वुद्धि श्दि	अणुसोयन्ति	सत्त सत्त
वृ (धातु) पाउणिस्सामि, पाउढ;	शुध् ,, सुद्ध, सुविमुद्ध	सत्ता —
निवारेह, निव्वुद, अभिनिव्वुद,	श्रद्-धा ,, सद्धे	सत्ति शक्ति
परिनिव्वुद, सवुड	श्री ,, सिय अणुसिय, अणुत्तिसया,	१ सत्थ शक्क
वृज् ,, वज्जेना, वज्जन्त, वज्ज,	अणुत्तिसि, समुत्तिण्णामि, ०गोमि,	२ सत्थ शाल्ल
परिव्वज्जए, परिव्वज्जयाण,	समुत्तिसणासि, ०णोसि, ०णाह,	सत्थद्- शात्त्
वृत् ,, अइत्त ढ् ३०, वत्ते (ढ्) उज्,	नित्तिसय	सद् (धातु) मत, अवधीयमाण,
तिउद्ध, तिउद्ध, तुद्धे आउद्ध,	श्र् ,, सुणह, सुणेह, सुणेह, सुण-	आसज्ज, निसिएज्जा, समासज्ज,
वद्ध, नियट्ठन्ति, नियट्ठमाण, अभिनिव्व-	माण, सुय, दुत्सुय, सुणिया, सोचा,	निसण्ण, विप्पसायए, विधीयमाण,
त्तेज्जा, विनियट्ठमाण, अणुपरियट्ठद्,	सत्सुस, मुत्सुसमाण	विसण्ण
०यट्ठमाण, वियत्तण, विउट्ठण, वियहत्ता,	त्त्वप्प् ,, अवसक्केज्जा	सद् शब्द
सवट्ठेज्जा, सवट्ठहत्ता, सवट्ठत्ता	१ स, से, सो स (तत् सर्वनाम,	सद्धा श्रद्धा
वृध् ,, वड्ढह, वड्ढह, अभिसवुद्ध	पुल्लिङ्ग-प्रयमेकवचन)	सद्धि सधोम्
वेय वेद	२ स सहार्थक	सन् (धातु) अपज्जविसिय, पज्जव-
वेयण वेदन	३ स स्व	सिय, सपज्जवसाण
वेयवत्- वेदवन्त्-	सइ सक्कद्	संताणय सन्तानक
वेयावाडिय वेयावुत्थ		संति शान्ति

संज्ञेगण्य सन्त्येक-
 संथर सत्तर
 संथव सस्तव
 संथारग सत्तारक
 संथुय शस्तुत
 संधण सम्धान
 संधि —
 सज्ञा सञ्ज्ञा
 संनिचय —
 संनिवेश संनिवेश
 संनिहाण संनिधान
 संनिहि संनिधि
 सपिपण्- सपिन्
 सवलत्त शबलत्व
 सभा —
 सम —
 समजस —
 समण श्रमण
 समणञ्ज समणुञ्ज
 समय —
 समया समता
 समायाण समादान
 समायार समाचार
 समारंभ —
 समाहि समाधि
 समिद्यं, ०या सम्यक्
 समुहाइण्- समुत्यायिन्
 समुप्पाय समुत्पाद
 सम्मुस्सय समुच्छय
 संपसारग संपसारक
 संपाइम संपातिम
 सफास सत्परी
 संवाह सम्वाध
 संवाहण सम्वाधन
 सम्मइ सम्मति
 सम्मइया सम्मतिता
 सम्मं सम्यक्
 सम्मत्त सम्यक्त्व
 सम्मुइ सम्मुति

सम्मुइया सम्मुतिता
 सम्मुच्छिम समुच्छिम
 १ सय शय
 २ सय स्वक
 १ सयण शयन
 २ सयण स्वजन
 सयं स्वयम्
 सययं सततम्
 सया सदा
 सर स्मर
 १ सरण शरण
 २ सरण स्मरण
 १ सरण्या शरणता
 २ सरण्या स्मरणता
 सररीर शरीर
 सररीरग शरीरक
 सल्ल शल्य
 सवण श्रवण
 सव्व सर्वं
 सव्वओ सर्वतस्
 सव्वत्त सर्वत्व
 सव्वत्थ सर्वत्र
 सव्वया सर्वदा
 सव्वसो सर्वशस्
 सव्वावन्त् -सर्वावन्त्
 सस्सय दृष्टव्य सासय
 सह (धातु) सहइ, सहए
 १ सह —
 २ सह स्वक (सह सम्मइ-
 या=स्वकसन्मत्या)
 सहसाकारय् (धातु) सहस
 कारेह
 सहि सखि
 साइण्-शायिन्
 साइम स्वादिम
 सागारिय सागारिक
 साड शाट
 साध् (धातु) साहेइ, साहइ,
 साहिस्सामो, साहिय

सामागिय सामग्य
 सामत्त श्यामत्व
 सामिण्- स्वामिन्
 साय साथं
 १ सार —
 २ सार स्मार
 सारग स्मारक
 साला शाला
 सासय शाश्वत
 साहम्मिय साधर्मिक
 साहारण साधारण
 साहु साधु
 सिंग शृङ्ग
 सिच् (धातु) ससिञ्चमाण, सं
 ष०, ससिञ्चियाण
 सिठिल सिथिल
 सिणाण ज्ञान
 सिद्धि —
 सिध् (धातु) निश्चिद्धा, पडिसेहिय
 सिर शिरस्
 सिलिचइण्- श्लोपदिन् (श्लोप
 पादादौ काठिन्यम्-व्याख्या)
 सिलोग श्लोक
 सिसिर शिशिर
 सिस्स शिष्य
 सीय शीत
 सील शील
 सीलमंत शीलवन्त
 सीद् (धातु) सिवित्त्वामि,
 सीवि०
 सील शीर्ष
 सु —
 सुकर —
 सुकरण —
 सुक्क शुष्क
 सुक्किल शुक्क
 सुहु डुहु
 सुणग शुनक
 सुणिम ...

सुण्डा सुपा	सोवाग श्वपाठ	१ हस्स हर्ष
सुत्त सूत्र	सोहि घोषि	२ हस्स, हु० न्दस्व
सुन्न शून्य	स्खल् (धातु) खल्यिसु	हा (धातु) जहाइ, जहति, जहादि,
सुप् (धातु) सुत्त	स्तन् ,, धणति	दीण, जहिता, विज०, हिच्चा, परिहा-
सुम्भ श्रुभ	स्तभ् ,, ओहुंभियाए, ओहुंभिया	यमाण, अप०, अपरिहीण, पहाय,
सुम्भि सुभि	स्तु ,, सथरए, सथरेज्जा, सथ-	विप्पजठ, विजहिता, विमाहितु
१ सुथ श्रुत	रिता	हार —
२ सुय सुत	स्था ,, चिट्ठइ, चिट्ठे, चिट्ठेज्जा,	हालिइ हारिद्र
सुरभि —गन्ध	ठाएज्जा, चिट्ठच्—, अचिट्ठत्, ठिय,	१ हास हर्ष
सुवसु —	ठावए, उहिय, अणुहिय, उहाए, उट्ठाव,	२ हास — हास्य
सुव्वय सुवत्त	समुट्ठिय, समुट्ठाव, उवाट्ठिय, अणुव०,	हि —
सुसाण श्मसान	परिट्ठवेज्जा, परिट्ठवेत्ता, विपरिचिट्ठइ,	हिंस (धातु) हिंसइ, हिंसन्ति,
सुह सुख	विट्ठिय, परिविचिट्ठइ	हिंसिस्सन्ति, हिंसिसु, आहिंसमाण;
सुहुम सुभम	स्पंद ,, विप्फन्दमाण	विहिंसइ, विहिंसन्ति, अविहिंसमाण
सुइ श्वि	स्पृग् ,, उघन्ति, फासए, पुट्ठवन्द—,	हिंसा —
सुइय सुय्य, अथवा सूयिक	पुट्ठ	हिमग हिमक
सुणिय शूनिक	स्पृह् ,, पीहए	हिमवाय हिमपात
सुर शूर	स्फुद् विफुडमाण	हिय ह्य
सु (धातु) पसारए, पसारमाणे,	स्मू ,, स (म) रन्ति, अणुस-	हियय ह्यय
पसारिय, पसारित्तु, सपसारए,	सरइ	हिरण्ण हिरण्य
अणुससरइ	सु ,, वीसवन्त	हिरिण्— (वीमन्त्)
सुज्ज ,, वोसिरे, वेसइ, विओसज्ज,	स्वाद ,, साइज्जइ, साइजिजस्सामि,	हिरी वी
०सिज्ज, ०सेज्ज, वोसज्ज, आणिसइ	साय, असाय, अस्साय	हु खल्ल
सेज्जा शय्या	हंता हन्त	हुं
सेय श्रेयस्	हंभो —	हुरत्या हुरस्ताइ
सेइ (धातु) सेवइ, ० ए, सेवन्ति,	हणु हव	हुस्स हस्व
सेवेज्जा, सेवित्था, सेविसु, सेविता,	हणुय हनुक	ह (धातु) अभिहव, अवहरन्ति,
आसेवइ, ० ए, आसेविता, पडि-	हत्थ हस्त	आहरे, आहइ, आहट्ठइ,
सेवे, पडिसेवमाण	हन् (धातु) हणति, हणिया, हणे,	आहारेमाण, उदाहरन्ति, उदाहइ,
सेस शेष	हण, हणह, हणत्—, हत्तव्व, हय,	परिहरन्ति, परिहरेज्जा, परिहरन्त,
सेहि (सिद्धि)	(हओवहय), हम्मइ, हन्नइ, आहइ	विहरे, विहरित्था, विहरिंसु, विह-
सोणि (णी) य शोणित	उवहय, निहाणिज्ज, निहाणिसु, अविह-	रन्त, विहरमाण, विहरेज्जा
सोत्त श्रोत्र	म्ममाण,	हप् (धातु) हरिसे
१ सोय शौच	हंतर- हन्त्	हेउ हेतु
२ सोय श्रोत्र	हरय हद	हेमंत हैमन्त
३ सोय खोत्स	हरिय हरित	होइ हु० ओइ
सोयविद्या शौचवता	१ हव्व अर्वाक्	हुनु (धातु) निण्हवइ, निण्हवेज्जा
सोलस पोढश	२ हव्व हव्य	ही ,, अहीरीमाण

कतिपया विशिष्टाः पाठ-भेदाः ।



- १ पं. १ आउसतेण, आमुसतेण, आवसतेण.
 ,, १०. अणुसचरइ, स्थाने अणुससरइ.
 ,, १६. सन्धेइ स्थाने सन्धावइ.
 ,, १७ मोयणाए स्थाने भोयणाए.
- २ पं २४ नियाग स्थाने नियाय, निकाय.
 ,, २६. वियहिंत्तु विसोत्तिय स्थाने विजहिंत्ता
 (वियहिय, वा) पुव्वसजोग
- ३ पं. ३ सत्थ चेत्य स्थाने पास चेत्य.
 ,, ७. पासमाणे रूवाइ स्थाने पासमाणो
 पासिमाइ, सुणमाणे सद्दाइ स्थाने सुण-
 माणो सुणिमाइ.
४. पं. २३. एजस्स स्थाने एयस्स, एगस्स.
 ,, २७. इह स्थाने इति.
५. ,, २०. चित्ते स्थाने चिट्ठे
 ,, २१ सत्थे स्थाने सत्ते
 ,, २२. माणवाण स्थाने असमजयाण.
 ,, २३. परिन्नाणेहिं स्थाने पन्नाणेहिं
६. पं. १० जावसोत्तपरिन्नाणेहिं अपरिहायमाणेहिं
 स्थाने जाव सोत्तपन्नाणा अपरिहीणा.
 ,, १५. क्वचित् वि एगे नास्ति.
 ,, २३. विणहत्तु स्थाने विणा वि
 ,, २६. क्वचित् णाहयले अग्रे सयणवले
 अधिकपाठ
- ,, २७. दण्ड-समायाण स्थाने दण्ड समारभइ,
 भया दण्ड-समायाण सेपेहाए, इति वा
 ,, ३२. से असइ इत्यादि पाठस्थाने
 ' एगमेगे खल्ल जीवे अर्हयद्दाए असइ-
 उच्चागोए असइ नीया-गोए, कण्डगट्ट-
 याए नो हीणे नो अहरित्ते.' एतादृशो
 नागार्जुनीय 'पाठ' ।
७. पं. २. क्वचित् सय नास्ति । तथैव 'पुरि-
 सेण खल्ल इपसुव्वेगखुहेसएणं पुंवि
- ताव जीवाभिगमे कायव्वे जाव इच्छि-
 याणिच्छिय सायासाय वियाणिता
 हिंसोवरई कायव्वा ' एतादृशो
 नागार्जुनीयो पि पाठभेदः ।
१४. पिशउया स्थाने पियायया.
 ८. पं १४. धीरे पससिए स्थाने धीरे तथा
 नमंसिओ
 ,, १६. पडिसेहिंओ स्थाने पडिलाभिओ.
 ,, १८. ०रूवेहिं सत्थेहिं इत्यादि पाठस्थाने
 सत्थेहिं विरूव-रूवाण अट्टाए, त-जहा
 एयः पाठः ।
 ,, २३. अय सन्धीति० स्थाने अय सन्धि
 अदक्खु.
९. पं ६. अन्नहा ण पासए स्थाने अन्नयरेण
 पासएण
 ,, २५. से त जाणह, जमह बेमि स्थाने से
 एवमायाणह ज बेमि.
 १०. पं. ९ दिट्ठ-भए स्थाने दिट्ठ-पहे.
 ,, १४. तम्हा धीरे न रब्बइ स्थाने तम्हादेव
 विरउजए
 ,, २१ क्वचित् एस धीरे पससिए नास्ति.
 क्वचित् सुवसु धीरे प०
११. पं. २. . आवट्ट अणु० स्थाने दुक्खावट्टमेव
 अणु०.
 ,, ७. आयव नाणव स्थाने आयवी नाणवी.
 ,, ११ माराभिसकी स्थाने मारावसक्की,
 ,, २५ कम्म-मूल च ज स्थाने कम्ममाहू य ञं.
 ,, २९ मइम स्थाने मेहावी.
१२. पं. १३. अगग च इत्यादि स्थाने क्वचित् मूलं
 च अगग च विएत्तु धीरे, इति तथैव
 मूल च अगगं च विएत्तु धीरे, कम्मासए

- चेद् विमोक्षयण च इति नागार्जुनीयः पाठभेदः ।
- ॥ २६ ॥ नाणुजाणए अग्ने छचित् छणन्त नाणु-
मोएय अधिक पाठ ।
- ॥ ३० ॥ निसण्णो पावेहिं कम्महेहिं स्थाने तेसु
कम्मेषु पाव.
- पृ. १३ पं. १ गामी स्थाने गाम.
- ॥ १३ ॥ धीरे स्थाने धीरे तथा
विसय पद्मगम्मि वि
दुविहम्मि तिय-तिय
भावओ सुदलु जाणिता
से न लिप्पद् दोसु वि.
- (१ विसयम्मि पद्मगम्मि हलपि प्रत्यन्तरे)
- इत्येवंरूपो नागार्जुनीयः पाठभेदः ।
- ॥ १९ ॥ अवरेण पुव्व न सरन्ति एगे इत्यादि
पंक्तिस्थाने
अवरेणे पुव्व किह् से अईय
किह् भागभिस्स न सरन्ति एगे,
मासन्ति एगे इह माणया उ (ओ)
जह् से अईय तद् भागभिस्स ।
एवंरूपाः पंक्तयः ।
- ॥ २३ ॥ अहं स्थाने अरय, अह वा पाठः ।
- पृ. १४ पं. २ दुक्का-मत्ताए स्थाने दुज्जमायाए,
धम्ममायाय. इति वा पाठः ।
- ॥ ६ ॥ जूणिपुस्तके उवरय जाव सगळभि
पाठो नोपलभ्यते ।
- ॥ १९ ॥ छचित् मार स्थाने मरण; छचिच्च
मार च मरण च उभयमपि ।
- पृ. १५ पं. १. नो लोग० एतद्वाफ्यस्थाने नो च
लोगेसण चरे.
- ॥ ४ ॥ जयमाणे धीरे स्थाने जयाहि एव
- ॥ ८ ॥ आपाह स्थाने अक्खाह तत्रैवेवं
नागार्जुनीयः पाठभेदः—आघाह
धम्म खलु से जीवाण, त-जहा; ससार-
पडिवसाण मणुस-भवत्थाण आरम्म-
विणईण दुक्कुव्वेग सुहेसगाण धम्म-
सयण गवेसगाण निक्कित्त-सत्थाण सु-
स्सुसमाणाण पडिपुच्छमाणाण विनाण-
पत्ताण.
- ॥ १५ ॥ पुडो पुडो इत्यादि पंक्तिस्थाने एता-
दृशं पाठान्तरम्—एथ मोहे पुणो
पुणो, इहमेहिं तत्त-तत्त सयणो भवद्,
अहोववाएए फामे पडिप्पवेययन्ति,
चित्तं कुरेहिं कम्महेहिं चित्त परिपिचिहद्द;
अचित्तं कुरेहिं कम्महेहिं नो चित्त
परिवि चिट्ठ
- ॥ २४ ॥ ते एव वयासि स्थाने एवमाइक्खन्ति.
- ॥ २५ ॥ जूणिपुस्तके अणात्रियवयणमेय
नास्ति.
- ॥ ३० ॥ पायाउया स्थाने जूणिपुस्तके समणा
माहणा
- पृ. १७ पं. १ तमधि स्थाने त अस्स.
- ॥ ९ ॥ कम्मणा सफल स्थाने कम्मणा सफलत्त.
- ॥ १५ ॥ आयन्ता इत्यादिवाफ्यस्थाने नागा-
र्जुनीयमेतादृशं पाठान्तरम्—
जायन्ति केह लोए उक्कयाय-वद् समार-
मन्ति अट्टाए अणट्टाए वा
- ॥ २१ ॥ मरणाइ एद् स्थाने मरणादुपेह.
- ॥ २५ ॥ कट्टु एवमवयाणओ इत्यादि पंक्ति-
स्थाने नागार्जुनीयपाठभेदो यथा-
जे ललु विसए सेवद्, सेविता वा नालो-
एए परेण पुट्ठो निप्पवद्, अहवा त पर
सएण वा दोसेण पाविट्टवरएण वा
दोसेण उवल्लिपेज्जा ।
- ॥ २९ ॥ फासे स्थाने मोहे; छचित् पुणो अग्ने
ससय परिजाणओ विशेषः ।
- पृ. १८ पं. १ पचमाणे स्थाने तप्पमाणे
- ॥ १६ ॥ छन्द इह माणवा स्थाने छन्दाणं इह
माणयाण.
- ॥ २६ ॥ से सुप्पडि० एतत्पंक्तिस्थाने से सुय
अणुविचिन्तिय नया.
- ॥ ३१ ॥ अप्पमते परिधए स्थाने जूणिपुस्तके
अप्पमाय सुसिक्खेज्जा.
- ॥ ३२ ॥ अणुसोसेज्जासि स्थाने अणुपालेज्जासि.
- पृ. १९ पं. ८ सिया स्थाने चेव, अग्नेसिए स्थाने
अग्गुत्सिात्ति; अणुसिखत्ता
- ॥ ३३ ॥ सुद्धा० एतत्पंक्तिस्थाने सुद्धारियं च
[दुद्धम,

- ॥ १६. भए स्थाने पहे.
 पृ. २१. पं. २६. एत्य विरमेज्ज वेयवी स्थाने विवेग
 किट्ठेइ वेयवी.
 ॥ २७. विणइत्तु स्थाने विणएत्ता.
 ॥ २९. वडुमग स्थाने वट्टमग.
 पृ. २२. पं. १४. भणंग-रूवेहिं कुलेहिं जाया स्थाने
 भणंगओ तेसु कुलेसु.
 ॥ १५. रूवेहिं सत्ता स्थाने रूवेसु गिद्धा.
 पृ. २३. पं. २. पकुब्बइ स्थाने पगव्भइ.
 ॥ ७. धूयवाय प० एतत्पांकिस्थाने धुव,
 धुय इति वा पाठ' । तथैव धूयो-
 वाय पवेयइस्सामि इति नागार्जुनीय-
 मपि पाठान्तरम् ।
 ॥ १७. चइत्ता पुव्व संजोग स्थाने चूर्णिपुस्तके
 जहित्ता पुव्वमाययण.
 ॥ २६. अहेगे धम्ममायाए स्थाने सहिए धम्म-
 मायाय.
 ॥ २८. गेहिं स्थाने गत्य, गिद्धि.
 पृ. २४. पं. १४. वीरे स्थाने धीरे.
 ॥ १५ एय खु सुणी स्थाने एस सुणी
 ॥ २१. लायवमा० इत्यादिपंक्तिस्थाने पता-
 दृशो नागार्जुनीयः पाठभेद —
 एवं खल्लु से उवगरण-लाघविय तव
 कम्म-कखयकारण करेइ ।
 ॥ २२. सब्बओ सब्बत्ताए स्थाने नागार्जुनीय
 पाठान्तरं—सब्ब सब्बत्ताए
 ॥ २८. सधेमाणे स्थाने सन्धणाए, समुट्ठिए
 स्थाने समुट्ठिए.
 ॥ ३०. भणवकखमाणा स्थाने भणवकखेमाणा
 (णे), अवयमाणा, इति वा.
 पृ २५. पं. १ तेहिं महावीरेहिं स्थाने चूर्णिपुस्तके
 तेसिं महावीराण.
 ॥ २. उवल्लभ स्थाने पहल्लभ, हिच्चा उव०
 इत्यादिवाक्यस्थाने हिच्चा उवसम
 अहेगे फाकसिय समारभन्ति ।
 ॥ १५ जाइ स्थाने गव्भाइ
 ॥ २६ भविहिंथे इत्यादिशब्दस्थाने भवि-
 हिंसगा सुव्वया दन्ता अहेग परस.
 इत्येवंरूपाःशब्दा, तथा-पता-
 दृशो नागार्जुनीयः पाठभेद—

- “ समणा भविस्सामो अणगारा अकिं-
 चणा अपुत्ता अपसु भविहिंसगा सुव्वय
 दन्ता परदत्त-भोइणो, पाव कम्म नो
 करिस्सामो ” समुट्ठाए ।
 ॥ ३१. सया परकमेज्जासि स्थाने चूर्णि-
 पुस्तके सब्बओ परिव्वएज्जासि
 पृ. २६. पं. ६. आइक्खे वि० एतत्पांकिस्थाने
 नागार्जुनीयमेतत्पाठान्तरम्—जे
 खल्लु भिक्खु बहु-सुए बव्भामगे आह-
 रण-हेवं कुषले धम्म कहा लद्धि-सम्पत्ते
 खेत काल पुरिस समासज्ज ' के अथ
 पुरिसे क वा दरिसण अभिसपत्ते ? '
 एव गुणजाईए पभू धम्मस्स आघ वेत्ताए ।
 ॥ २०. तम्हा लूहाओ नो परिवित्तसेज्जा
 स्थाने चूर्णिपुस्तके जसिभे लुसिणो
 नो परिवित्तसन्ति इति पाठान्तरम् ।
 ॥ २४. विओवाए स्थाने वियाघाए, वियावाए,
 विवायाए, विवाघाए; इति पाठा-
 न्तराणि ।
 ॥ २७. कालोवणीए० इत्यादि वाक्यस्थाने
 नागार्जुनीया. पठन्ति—
 जाइ खल्लु अह अपुण्णे आउ-तेउ-काल
 करिस्सामि, तो परिण्णा-लोवे अकित्ती
 दुग्गइ-गमणागमण च भविस्सइ ।
 पृ. २७. प. १३. नो सुय० इत्यादि शब्दस्थाने चूर्णि
 पुस्तके न एस धम्मे सुयक्खाए सुप-
 त्तते भवइ एते शब्दाः ।
 ॥ २० उदाहिया स्थाने उदाहडा.
 ॥ २३. पडिक्क स्थाने परिक, पाडियक्क,
 पडिइक्क, पडियक्क, पाठान्तराणि,
 तत्रैव जीवेहिं कम्मसमार-
 म्भेण स्थाने दण्ड समारभन्ते पाठा-
 न्तरम् ।
 पृ. २८. पं. ३. वेएमि स्थाने चूर्णिपुस्तके (कहे-
 भणन्ति) करोमि (त तु न जुज्जइ).
 ॥ २३. सोच्चावई मेहा० इत्यादिशब्दस्थाने
 सोच्चा मेहावी वयण प० ।
 ॥ २९. सनिहाण-सत्यस्स स्थाने चूर्णिपुस्त-
 के सनिहाणस्स खेयत्ते (अत्रवायणाए).
 सनिहाणसत्यस्स खे० ।

- ” २९. ” १० भोम-नेलिङ्ग स्याने भवम चेलए, चूर्णिपुस्तके भदुया अचले पाठो नौपलभ्यते
- ” १७. निस्सेध स्याने निस्सेधियं, निस्सेयध, नीसेध, इति पाठा
- ” २२ एत्र स्याने य, अत्रैव टीकाकारसं-गृहीतमेतादृशं पाठान्तरम्”-०गम-णाए] त भिन्नु केद्र गाहावर्द एवधक-मित्तु यूया “भाउसन्तो समणा ! अह ण तव अट्टाए अचण वा ४ अभिहड दलामि ।” से पुव्यामेव जाणेज्जा “भाउसन्तो गाहावर्द ! ज ण तुम मम अट्टाए अचण वा ४ चेएसि, नो खलु मे कप्पइ एय-गगार अचण वा ४ भोत्तए वा पायए या अत्रे वा तह-स्प-गारए ।”
- पृ ३०. ” ७ एगाणिय स्याने एगाणिग.
- ” ११. सचारेज्जा स्याने साहारेज्जा च्छ०, भासाएमाणे स्याने भाटावमी (मा) णे पाठान्तरं च्छ० टी पुस्तके
- ” २०. पडिलेहिय-इत्यादि शब्दस्याने पडि-लेहिता सयाराग सपरजेज्जा एता-दृशं शब्दभेद ।
- ” २७ ण एव स्याने ण भिन्नुएष एव । चा एमि स्याने सचा०
- ” ३१. ” २ दळइस्सामि स्याने दाहामि, दासामि, चा पाठ ।
- ” ११ वसुमन्तो स्याने बुधिमन्तो
- पृ ३१. ” १२. विद्वत्ता स्याने विधिधित्ता
- ” १३ ०पुब्बिए स्याने ०पुधिविय, कम्मणाभो स्याने भारमाभो ।
- ” १५ अन्तिय स्याने कारणा
- ” २३. तु विनाय स्याने विद्याणित्ता
- ” २४. सुयहेज्जा स्याने तु वज्जेज्जा, निवज्जे-ज्जा, वा पाठ ।
- ” ३१. पगहीय तर स्याने ०हीय तरणं, ०हीय-तराग, वा पाठ ।
- पृ ३२. ” ११. पादुरेसए स्याने पाउडुएषए
- ” १४ चाययतरे स्याने चायतरे
- ” २० य सपयय स्याने इति संखया
- ” २२. मेउरेसु स्याने भिउरेसु, तथैव बहु-लेखु वि इत्यपि पाठान्तरं.
- ” २३ युव वण्ण स्याने धुव अन्न. तथैव सुहुम वण्ण इति पाठान्तरं
- ” २६. सव्वहे० स्याने सव्वजये०
- पृ. ३३. ” ६. अभिक्खं स्याने आक्खं, विहरिं सु स्याने वियरिं सु
- ” १४ पुट्टो वि नाभिगासि सु स्याने पुट्टे व से अपुट्टे वा इति चूर्णिसम्मत्पाठः । तथैव पुट्टो व सो अपुट्टो वा । नो अणुनाइ पावणं भगव । इति नागार्जुनीय पाठभेद ।
- ” १९. नाइ-मुए स्याने नाइ पुते
- पृ ३४. ” ७. अहाकडं स्याने आहाकम्म
- ” १६. रत्तधसि स्याने कट्टसि
- ” १८. बहुसो अपादिनेणं स्याने अपदिन्नेण धीरेण.
- पृ. ३४. ” २१ पणियसालासु स्याने सालाघराण
- ” २७. ‘निह पि नो पगामाए सेवइ य मभव उट्टाए’ एतद्वाक्यस्याने निगावि न पगामा आधी तदेव उट्टाए एताद-ृशो नागार्जुनीयः पाठ ।
- ” २९. आसिं सु भगव उट्टाए स्याने न चिर जीगित्ता ईंधि साइयासि इति चूर्णि-पुस्तके पाठ ।
- ” ३१. तत्सुवसग्गा स्याने तत्सुवसग्गा.
- पृ ३५ ” ४. सभिए फामाइ विरूवक्काइ स्याने साहिए इति मन्ता भगव भणगारे इति चूर्णिमतपाठ ।
- ” ९ अयमुत्तमे से धम्मे स्याने “को एत्य सामी डिभो” एयं पाठं चूर्णिपु० ।
- ” १३ पिहिया वा सक्कामो स्याने पिहिया य चाएस्सामो चूर्णि०
- पृ ३६ ” ४ अदु फलेण स्याने अह कुन्ते (न्तए) ण.
- ” ६ ओट्ठभियाए स्याने उट्ठभिया
- ” १७ न से कप्पे स्याने न सेवित्त्वा
- ” २४ अपिधित्त्वा स्याने विहदित्त्वा
- ” ३०. घासमेसे कड स्याने घासमात् कड,
- ” ३१ सुविंसुद स्याने सुविंसिद, ० गयाए सेवित्त्वा स्याने ० गया गवेसित्त्वा चूर्णि०
- ” ३३ सयय स्याने सन्त्यरे
- पृ. ३७ ” ८ क्षायइ समाहिमपडिने स्याने क्षायई समिय पेहमाणो चूर्णि०

